

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/भाद्र 27, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 208

No. 238]

DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941

[N.C.T.D. No. 208

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

फा.सं.13/(230)/श.वि./एमबी/2018/पार्ट फाईल/सी.डी.न.-021517474/1922.-पूर्व की सभी सूचनाओं अधिक्रमण तथा पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के 7) की धारा 22 के साथ पठित दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियम 14 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के लिए निम्नलिखित एक (01) नगर विक्रय कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी करती है:-

नगर विक्रय कमेटी – नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

अनु – क्रमांक	विभाग	सदस्यों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी-अध्यक्ष	1	अध्यक्ष नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	मुख्य वास्तुविद
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि (मुखिया प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सीईओ द्वारा नामित अधिकारी)- सदस्य	3	1 सचिव, न.दि.न.प. 2 वित्तीय सलाहकार, न.दि.न.प. 3 निदेशक (प्रवर्तन), न.दि.न.प.

5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	ए.सी.पी. (यातायात), चाणक्यपुरी
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	ए.सी.पी., (दिल्ली पुलिस), संसद मार्ग
7	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	1 सुनील उद्यान मार्ग मार्केट एसोसिएशन, रिंग रोड मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, सरोजनी
8	गैर सरकारी संगठन– सदस्य	2	1. हूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (एच आर एल एन) मस्जिद रोड 2. आई जी एस एस एस (इन्डो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाईटी, प्लोट नं० 28 लोधी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, साई बाबा
9	बैंक/ स्ट्रीट वैंडर्स संघ – सदस्य	1	नैशनल हॉर्कर्स फ़ैडरेशन (एन एच एफ)
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)– सदस्य	12 (चयनित 10)	श्रीमति रुबी कुमारी मिश्रा श्रीमति अनीता श्रीमति मथुरा बाई श्री दिनेश कुमार दिक्षित श्री खेम पाल श्री मोहम्मद हयात श्री जुगेष कुमार श्रीमति मीना देवी श्री राज कुमार श्रीमति कविता काटे
11	स्थानीय प्राधिकरण के सीपीडब्ल्यूडी/ पीडब्ल्यूडी/निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) – सदस्य	1	मुख्य अभियन्ता (सिविल-1)
12	समुदाय आधारित संगठन – सदस्य	1	युवा
13	रैजीडेन्ट वेलफेयर संघ – सदस्य	2	रैजीडेन्शल वेलफेयर कमिटी फॉर लोकल एरिया डवलेपमेन्ट, के-87, बी.के. दत्त कॉलोनी, जोर बाग, नई दिल्ली श्री माकन सिंह पवार, ब्लॉक न०, 87-92, सेक्टर-4, डी.आई.जेड, एरिया, गोल मार्केट (95606450630)
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य	1	ए० डी० एम० (जिला नई दिल्ली)
	कुल	30	

यह अधिसूचना माननीय मंत्री (शहरी विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, की स्वीकृति से जारी की जाती है।

विनोद कुमार, उप सचिव (श.वि)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th September, 2019

No.F.13(230)/UD/MB/2018/Pt File 1/(CD NO. 021517474)/1922.—In supersession of all earlier notifications and in exercise of powers conferred under Section 22 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) read with Rule 14(3) of the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017, the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies the constitution of following ONE Town Vending Committee for New Delhi Municipal Corporation namely:-

1. TOWN VENDING COMMITTEE - NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL

S. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member
1.	Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer of the local authority concerned - Chairperson	1	Chairperson, New Delhi Municipal Council
2.	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Medical Officer of Health
3.	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Chief Architect
4.	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) - Members	3	1. Secretary, NDMC 2. Financial Advisor, NDMC 3. Director (Enforcement) NDMC
5.	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP(Traffic) Chanakyapuri
6.	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Delhi Police) Parliament Street
7.	Market/Traders Associations- Members	2	Sunil Udhyan Marg Market Association Near Jitender, Ring Road Market Welfare Association, Sarojini
8.	Non-Government Organizations- Members	2	Human Rights Law Network (HRLN), Masjid Road IGSSS (Indo Global Social Service Society, Plot No.28, Lodhi Instt. Area, Behind Sai Baba
9.	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	National Hawker Federation (NHF)
10.	Street Vendors (Elected)- Members	12	Smt.Ruby Kumari Mishra Smt. Anita Smt. Mathura Bai Sh. Dinesh Kumar Dixit Shri Khempal Sh. Md. Hayat Sh.Jugesh Kumar Smt. Meena Devi Shri Rajkumar Smt. Kavita Kate
11.	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Chief Engineer (Civil-I)
12.	Community based organizations- Member	1	YUVA
13.	Resident Welfare Association- Members	2	“Residential Welfare Committee for Local Area Development, K-87, B.K. Dutt Colony, Jor Bagh, New Delhi. Mr. Makan Singh Panwar, Block No 87-92, Sector -4, DIZ Area, Gole Market (95606450630)
14.	Revenue Department, GNCTD- Member	1	ADM, New Delhi Distt., New Delhi
	Total	30	

This notification is issued with the approval of the Hon’ble Minister (Urban Development) Government of NCT of Delhi

VINOD KUMAR, Dy. Secy. (M.B.)

अधिसूचना

दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

फा.सं.13/(230)/श.वि./एमबी/2018/पार्ट फाईल/सी.डी.नं.-021517474/1923 पूर्व की सभी सूचनाओं अधिक्रमण तथा पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के 7) की धारा 22 के साथ पठित दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियम 14 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए निम्नलिखित ग्यारह (11) नगर विक्रय कमेटियों के गठन की अधिसूचना जारी करती है:-

शहरी-सदर पहाड़गंज क्षेत्र

क. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त/श० स० प० क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उपस्वास्थ्य अधिकारी/श० स० प० क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार श० स० प० क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी (मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3	1. अति० उपायुक्त श० स० प० क्षेत्र 2. प्रशासनीक अधिकारी श० स० प० क्षेत्र 3. अनुभाग अधिकारी श० स० प० क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	सहायक आयुक्त यातायात पुलिस दरियागंज
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	सहायक आयुक्त पुलिस, दरियागंज
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	1. चैम्बर ऑफ ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री, फ्री लेंस, 12 2. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, 11, गोला कॉटेज
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	युवा सुनैना देवी कल्याण समिति
9	बैंक/स्ट्रीट बैंडर्स संघ - सदस्य	1	नेशनल हॉकर फेडरेशन
10	स्ट्रीट बैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12	1. श्री संतोष सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह 2. श्री मुरलीधर तिवारी पुत्र श्री राम भगत तिवारी 3. श्री संजय कुमार पुत्र श्री राधेश्याम 4. श्री निजामुद्दीन पुत्र श्री नानेह खान 5. श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री मो० वासेल 6. श्री मो० शहाबुद्दीन पुत्र श्री मो० शयाद 1. श्रीमति उमा पत्नी श्री मंशाराम 2. श्रीमति आशा पत्नी श्री मुरलीधर तिवारी 3. श्रीमति पुष्पा पत्नी श्री आशा नन्द सलुजा 4. श्रीमति सुमन दुबे पत्नी श्री दिपक कुमार दूबे 1. श्याम लाल पुत्र श्री रामअवतार 2. राज कुमार पुत्र श्री राधेश्याम
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो)- सदस्य	1	अधीक्षण अभियंता शहरी सदर पहाड़ गंज क्षेत्र, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
12	समुदाय आधारित संगठन- सदस्य	1	हॉकर अधिकार सुरक्षा समिति
13	रेजीडेंट वेल्फेयर संघ -सदस्य	2	1. आर.डब्ल्यू.ए., बिहार सोशल वेल्फेयर एसोसिएशन, नबी 2. बी 7/1, एम.आई.जी डी.डी.ए, फ्लैट, आर.डब्ल्यू. सराय खलील, सदर बाजार दिल्ली
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

सिविल लाईन्स क्षेत्र
टाउन वेंडिंग कमेटी-1, वार्ड संख्या-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

क्र. सं.	विभाग/भाग	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चुने हुए सदस्य	
1.	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त/सिविल लाईन्स क्षेत्र	
2.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी सिविल लाईन्स क्षेत्र	
3.	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्त्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार,सिविल लाईन्स क्षेत्र	
4.	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी (मुख्य प्रवर्त्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	3	1.सहायक आयुक्त,सिविल लाईन्स क्षेत्र	
			2.उप-निदेशक,पशु सेवाएं व चिकित्सा	
			3.प्रशासनिक अधिकारी,सिविल लाईन्स क्षेत्र	
5.	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी- अध्यक्ष	1	सहायक आयुक्त ट्रेफिक पुलिस, केशव पुरम	
6.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	सहायक आयुक्त पुलिस, अशोक विहार	
7.	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	संयुक्त व्यापार संगठन, सन्त नगर बीएजआरएम मार्केट एसोसिएशन जहाँगीर पुरी	
8.	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	कॉर फाउण्डेशन पी.ई.ए.सी.ई	
9.	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ – सदस्य	1	राजीव गाँधी तह बाजारी एसोसिएशन	
10.	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित) –सदस्य	12	सामान्य	श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री बिन्देशवरी प्रसाद
				श्री हरप्रसाद सुपुत्र श्री छोटे लाल
				श्री रामजीत गुप्ता सुपुत्र श्री चिकुरी गुप्ता
			महिला	
			अनुसूचित	श्रीमति माया देवी पत्नी श्री भवर लाल
				श्री जोगिन्दर सुपुत्र श्री राम सिंह
11.	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो)- सदस्य	1	अधीक्षक अभियन्ता,सिविल लाईन्स क्षेत्र	
12.	समुदाय आधारित संगठन- सदस्य	1	पहली आवाज	
13.	रेजीडेन्ट वेलफेयर संघ –सदस्य	2	1.आर.डब्ल्यू.ए. वशिष्ठ एन्क्लेव बुराड़ी	
			2.शास्त्री पार्क वेलफेयर एसोसिएशन बुराड़ी	

14.	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)– सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

सिविल लाईन्स क्षेत्र				
टाउन वेंडिंग कमेटी-02,वार्ड संख्या-16,17,18,19,20,21,22,23 व 83/एन				
क्र. सं	विभाग/भाग	प्रतिनिधियों की संख्या		नामांकित/चुने हुए सदस्य
1.	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1		उपायुक्त/सिविल लाईन्स क्षेत्र
2.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1		उप-स्वास्थ्य अधिकारी सिविल लाईन्स क्षेत्र
3.	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1		सहायक नगर योजनाकार,सिविल लाईन्स क्षेत्र
4.	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि (मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3		1.सहायक आयुक्त,सिविल लाईन्स क्षेत्र 2.उप-निदेशक,पशु सेवाएं व चिकित्सा 3.प्रशासनिक अधिकारी,सिविल लाईन्स क्षेत्र
5.	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1		सहायक आयुक्त ट्रेफिक, केशव पुरम।
6.	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1		सहायक आयुक्त जहांगीर पुरी।
7.	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2		1.चैम्बर ऑफ ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री, फ्री लेंस 12 2.स्वरूप नगर मार्केट एसोसिएशन
8.	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2		पी.ई.ए.सी.ई. हॉकर फाउण्डेशन दिल्ली
9.	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ – सदस्य	1		नेशनल हॉकर फेडरेशन दिल्ली
10.	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12	<div>सामान्य</div> <div>महिला</div> <div>अनुसूचित जाति</div>	1.श्री महेश कुमार सुपुत्र श्री जिले सिंह 2.श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री सतपाल 3.श्री राकेश कालरा सुपुत्र श्री बालमुकुंद 4.श्री बलबीर अरोडा सुपुत्र श्री हरमान सिंह 5. श्री विनोद कुमार तोमर सुपुत्र श्री हमसिंह तोमर 6. श्री श्याम दत्त सुपुत्र श्री गणेश दत्त श्रीमति निलम पत्नी श्री बलदेव श्रीमति सावित्री पत्नी श्री जगदीश श्रीमति लीलावती पत्नी श्री जगदीश श्रीमति रेखा पत्नी श्री संजय श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह श्री गुरदयाल सिंह सुपुत्र श्री ओम प्रकाश
11.	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो)- सदस्य	1		अधीक्षक अभियन्ता,सिविल लाईन्स क्षेत्र

12.	समुदाय आधारित संगठन- सदस्य	1	पहली दृष्टि
13.	रेजीडेंट वेल्फेयर संघ -सदस्य	2	जी ब्लॉक, आर.डब्ल्यू.ए, स्वरूप नगर प्रवर रजीडेंट्स वेल्फेयर
14.	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)- सदस्य	1	एम.डी.एम.
	कुल	30	

करोल बाग जोन

टाउन वेंडिंग कमेटी-वार्ड संख्या-24, 25, 26, 27, 28, 40, 41, 42, 43

करोल बाग क्षेत्र, नगर विक्रय समिति									
क्र. सं	विभाग/भाग	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चुने हुए सदस्य						
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त/करोल बाग क्षेत्र						
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी/करोल बाग क्षेत्र						
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्त्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक टाउन प्लानर, करोल बाग क्षेत्र						
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी (मुख्य प्रवर्त्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई.ओ.. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3	अपर उपायुक्त/करोल बाग क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी/करोल बाग क्षेत्र क्षेत्रीय अधीक्षक/ करोल बाग क्षेत्र						
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	सहायक आयुक्त ट्रैफिक पुलिस, पटेल नगर						
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	सहायक आयुक्त, दिल्ली पुलिस, करोल बाग						
7	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	फुट मार्केट एसोसिएशन, पहाड़गंज, शॉपकीपर वेल्फेयर एसोसिएशन						
8	गैर सरकारी संगठन-सदस्य	2	बापा नगर विकास संस्था सुनैना देवी कल्याण समिति						
9	बैंक/ स्ट्रीट वैंडर्स संघ-सदस्य	1	एन.ए.एस.वी.आई						
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित 8)	<table><tr><td>सामान्य</td><td>1. श्री वीर भद्र मौर्या पुत्र श्री मोती 2. श्री अमर नाथ पुत्र श्री देवी राम 3. श्री कुंदन लाल पुत्र श्री रूप राम 4. श्री पंचम चौरसिया पुत्र श्री शिव कुमार 5.श्री अमरजीत वर्मा पुत्र श्री छोटे लाल 6.श्री राम अवतार पुत्र श्री राजा राम</td></tr><tr><td>महिला</td><td>श्रीमति विमला देवी पत्नी श्री बद्रीलाल श्रीमति वसंती देवी पत्नी श्री रत्नलाल श्रीमति मोहराव देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश श्रीमति गीता पत्नी श्री जगदीश</td></tr><tr><td>अनुसूचित जाति</td><td>1. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र 2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री तेज रेमजी</td></tr></table>	सामान्य	1. श्री वीर भद्र मौर्या पुत्र श्री मोती 2. श्री अमर नाथ पुत्र श्री देवी राम 3. श्री कुंदन लाल पुत्र श्री रूप राम 4. श्री पंचम चौरसिया पुत्र श्री शिव कुमार 5.श्री अमरजीत वर्मा पुत्र श्री छोटे लाल 6.श्री राम अवतार पुत्र श्री राजा राम	महिला	श्रीमति विमला देवी पत्नी श्री बद्रीलाल श्रीमति वसंती देवी पत्नी श्री रत्नलाल श्रीमति मोहराव देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश श्रीमति गीता पत्नी श्री जगदीश	अनुसूचित जाति	1. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र 2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री तेज रेमजी
सामान्य	1. श्री वीर भद्र मौर्या पुत्र श्री मोती 2. श्री अमर नाथ पुत्र श्री देवी राम 3. श्री कुंदन लाल पुत्र श्री रूप राम 4. श्री पंचम चौरसिया पुत्र श्री शिव कुमार 5.श्री अमरजीत वर्मा पुत्र श्री छोटे लाल 6.श्री राम अवतार पुत्र श्री राजा राम								
महिला	श्रीमति विमला देवी पत्नी श्री बद्रीलाल श्रीमति वसंती देवी पत्नी श्री रत्नलाल श्रीमति मोहराव देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश श्रीमति गीता पत्नी श्री जगदीश								
अनुसूचित जाति	1. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र 2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री तेज रेमजी								
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो)- सदस्य	1	अधीक्षण अभियंता/करोल बाग जोन						

12	समुदाय आधारित संगठन— सदस्य	1	1.फुटपाथ विकास एकता मंच
13	रेजीडेन्ट वेल्फेयर संघ —सदस्य	2	1. चूनामण्डी आर.डब्ल्यू.ए. 2. आर.डब्ल्यू.ए. बापा नगर ब्लॉक—ई, करोल बाग 858871693
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य	1	एम.डी.एम.
	कुल	30	

केशव पुरम जोन टी.वी.सी.-01				
क्र.सं.	टीवीसी-1 कार्यालय / बॉडी	रिप्रसेन्टेटिव संख्या	नमांकित/चयनित सदस्य	
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त— अध्यक्ष	1	उपायुक्त/केशवपुरम जोन	
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी—सदस्य	1	उप—स्वास्थ्य अधिकारी/केशवपुरम जोन	
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्त्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)— सदस्य	1	सहायक टाउन प्लानर/(केशवपुरम जोन)	
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी (मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई. औ. द्वारा नामित अधिकारी)—सदस्य	3	सहायक आयुक्त/केशवपुरम जोन प्रशासनिक अधिकारी/केशवपुरम जोन क्षेत्रीय अधीक्षक/केशवपुरम जोन	
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)— सदस्य	1	ए0सी0पी0 ट्रैफिक (पश्चिम)	
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)— सदस्य	1	ए.सी.पी. लोकल पुलिस पश्चिम विहार दिल्ली	
7	बाजार/व्यापारी संघ — सदस्य	2	शालीमार बाग व्यापार सी.डी. ब्लॉक मार्केट	
8	गैर सरकारी संगठन— सदस्य	2	स्माधान अभियान नजदीक	
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ — सदस्य	1	राजीव गाँधी तह बाजारी एसोसिएशन	
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)— सदस्य	12 (चयनित 08)	सामान्य	1. श्री चन्द्र प्रकाश नागपाल सुपुत्र श्री नन्दलाल
				2. श्री धर्मपाल गुप्ता सुपुत्र श्री सेवाराम गुप्ता
				3. दुर्गा प्रसाद सहगल सुपुत्र श्री देवी दयाल
				4. श्री राजेन्दर कुमार बीबलानी सुपुत्र श्री बुलाकी राम बिबलानी
				5. श्री अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री ओमप्रकाश
			महिला	6. श्री सतपाल सुपुत्र श्री बाबा सिंह श्रीमति ममता देवी पत्नी श्री रवि खन्ना
				श्रीमति शान्ता चड्ढा पत्नी श्री मोहन लाल चड्ढा
				श्रीमति राधा गुप्ता पत्नी श्री धर्मपाल गुप्ता
				श्रीमति अंजली गुप्ता पत्नी श्री मनोज कुमार गुप्ता

			अनुसूचित जाति	1. श्री दलबीर सिंह सुपुत्र श्री मंगूराम 2. श्री कृष्ण पाल सुपुत्र श्री आशा राम
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो)–सदस्य	1	अधिक्षण अभियन्ता/केशवपुरम जोन	2. श्री कृष्ण पाल सुपुत्र श्री आशा राम
12	समुदाय आधारित संगठन– सदस्य	1	जनहित सोसायटी फॉर वेल्फेयर	
13	रेजीडेन्ट वेल्फेयर संघ –सदस्य	2	1. आर.डब्ल्यू.ए. डब्ल्यू सी.बी ब्लॉक, शालीमार बाग 2. आर.डब्ल्यू.ए. चौपाल वाली गली	
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–सदस्य	1	एस.डी.एम.	
	कुल	30		

केशव पुरम जोन-2				
टीवीसी-2				
क्र. स.	कार्यालय / बॉडी	रिप्रसेन्टेटिव संख्या	नमांकित/चयनित सदस्य	
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त–अध्यक्ष	1	उपायुक्त/केशवपुरम जोन	
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी–सदस्य	1	उप–स्वास्थ्य अधिकारी/केशवपुरम जोन	
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)– सदस्य	1	सहायक टाउन प्लानर/(केशवपुरम जोन)	
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी (मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी. ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)–सदस्य	3	सहायक आयुक्त/केशवपुरम जोन प्रशासनिक अधिकारी/केशवपुरम जोन क्षेत्रीय अधीक्षक/केशवपुरम जोन	
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	ए0सी0पी0 ट्रेफिक (केशवपुरम)	
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	ए.सी.पी. अशोक विहार	
7	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	कोल्हा पुर रोड कमला नगर	
8	गैर सरकारी संगठन– सदस्य	2	मजदूर रक्षक समिति सुनेना देवी कल्याण समिति	
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ – सदस्य	1	दिल्ली रेहड़ी पटरी विकली बाजार एसोसिएशन	
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)– सदस्य	12 (चयनित 11)	सामान्य	1. राहीस अहमद सुपुत्र अकबर हुसैन 2. श्री बलदेव राज शर्मा सुपुत्र श्री बाराराम शर्मा 3. श्री रमेश चन्द्र सुपुत्र श्री गोपी राम 4. श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री हिरालाल 5. श्री ब्रह्मानन्द गुप्ता सुपुत्र श्री नथू राम गुप्ता 6. श्री चन्द्रपाल सुपुत्र श्री गंगा राम

			महिला	1. श्रीमती अंगूरी पत्नी श्री नथूराम 2. श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री सीता राम 3. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी कजोड़ राम 4. श्रीमति गायत्री देवी पत्नी श्री जनार्दन
			अनुसूचित जाति	1. श्री तेजराम बंसीवाल सुपुत्र श्री रामस्वरूप 2. श्री मनोहर लाल सुपुत्र श्री देवी साहय
11	सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी / स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) – सदस्य	1		सुपरिटेन्डेंट इन्जीनियर / केशवपुरम जौन
12	समुदाय आधारित संगठन – सदस्य	1		जनहित सोसायटी फॉर वेल्फेयर
13	रेजीडेंट वेल्फेयर संघ – सदस्य	2		एम.सी.डी कॉलोनी आजादपुर आर.डब्ल्यू.ए गुलाबी बाग आर.डब्ल्यू.ए
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य	1		एस.डी.एम.
	कुल	30		

टी0वी0सी0 –01 नरेला क्षेत्र

क स0	विभाग	प्रतिनिधियों की संख्या	चयनित/मनोनित सदस्यों की संख्या
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त – अध्यक्ष	1	उपायुक्त/नरेला क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी – सदस्य	1	उप स्वास्थ्य अधिकारी / नरेला क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी) – सदस्य	1	सहायक टाउन प्लानर / नरेला क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी (मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी. ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी) – सदस्य	3	1 सहायक आयुक्त/नरेला क्षेत्र 2 उप निदेशक पशु सेवाएं, नरेला क्षेत्र 3 प्रशासनिक अधिकारी, नरेला क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं) – सदस्य	1	एसीपी, (यातायात) नरेला
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं) – सदस्य	1	एसीपी, नरेला
7	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	अलीपुर मार्केट वेल्फेयर एसोसिएशन नरेला फुड ग्रेन एसोसिएशन
8	गैर सरकारी संगठन – सदस्य	2	सी.ई.एस पी.ई.ए.सी.ई
9	बैंक/ स्ट्रीट वैंडर्स संघ – सदस्य	1	नरेला सब्जी विक्रेता संघ
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित) – सदस्य	12 (चयनित 08)	सामान्य 1. श्री पवन सुपुत्र श्री श्रीभगवान 2. श्री गुलशेर सुपुत्र श्री शफी अहमद 3. श्री संजय यादव सुपुत्र श्री लक्ष्मी यादव 4. श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री गरीब दास 5. श्री महादेव सुपुत्र श्री रामचन्द्र 6. श्री सरोज कुमार सुपुत्र श्री लालेन्द्र किशोर महिला 1. सुश्री रानी पुत्री श्री उदल सिंह 2. श्रीमति इशरत जहान पत्नी साखावत हुसैन

			अनुसूचित जाति	3. श्रीमति मालती पत्नी श्री राजेश कुमार 4. श्रीमति द्रौपदी पत्नी श्री बुद्ध प्रकाश 1. श्री योगेश कुमार सुपुत्र श्री अत्तर सिंह 2. श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री शोभनाथ
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो)– सदस्य	1	अधिशाली अभियन्ता, नरेला,	
12	समुदाय आधारित संगठन– सदस्य	1	रेहड़ी पटरी गरीब कल्याण समिति	
13	रेजिडेंट वेल्फेयर संघ –सदस्य	2	बुद्धपुर विकास रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन हाण्डी पाना वेल्फेयर एसोसिएशन	
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –सदस्य	1	एम.डी.एम.	
	कुल	30		

टी0वी0सी0 –02 नरेला क्षेत्र			
क स0	विभाग	प्रतिनिधियों की संख्या	चयनित/मनोनित सदस्यों की संख्या
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त– अध्यक्ष	1	उपायुक्त/नरेला क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी–सदस्य	1	उप स्वास्थ्य अधिकारी/नरेला क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)– सदस्य	1	सहायक टाउन प्लानर/नरेला क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी (मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी. ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)–सदस्य	3	1 सहायक आयुक्त/नरेला क्षेत्र 2 उप निदेशक पशु सेवाएं, नरेला क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, केशवपुरम क्षेत्र,
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	एसीपी, (यातायात)
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	एसीपी, दिल्ली पुलिस
7	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	1. चैम्बर ऑफ ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री, फ्री लेंस, 12, प्रीटिंग प्रेस ऐरिया, नियर पंजाब केंसरी, वजीरपुर, दिल्ली 2. मछली मार्केट एसोसिएशन जे.जे.कॉलोनी बबाना
8	गैर सरकारी संगठन– सदस्य	2	सी.ई.एस पी.ई.ए.सी.ई
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ – सदस्य	1	नरेला सब्जी विक्रेता संघ
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)– सदस्य	12 (चयनित 02)	सामान्य श्री कासिम सुपुत्र श्री अब्दुल वाहिद श्री रविन्द्र रस्तोगी सुपुत्र श्री दया प्रकाश महिला श्री बजरंग लाल सुपुत्र श्री किशन चन्द

			अनुसूचित जाति	श्री इन्दर कुमार सुपुत्र श्री पुष्पेन्द्र कुमार
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो)– सदस्य	1	अधिकांसी अभियन्ता, नरेला क्षेत्र	
12	समुदाय आधारित संगठन– सदस्य	1	रेहड़ी पटरी गरीब कल्याण समिति	
13	रेजीडेंट वेलफेयर संघ –सदस्य	2	डिवाइन आर.डब्ल्यू.ए., सेक्टर-25, रोहिणी	
			कृष्ण कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन	
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–सदस्य	1	एस.डी.एम.	
	कुल	30		

रोहिणी क्षेत्र टी.वी.सी.— 01**(24.25.26.27.28.40,41,42,43)**

क्र.स.	विभाग	प्रतिनिधि की संख्या	नामित/निर्वाचित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त–अध्यक्ष	1	उपायुक्त/रोहिणी क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी–सदस्य	1	उप–स्वास्थ्य अधिकारी, रोहिणी क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)– सदस्य	1	सहायक टाउन प्लानर/रोहिणी क्षेत्र,
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि (मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी. ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)–सदस्य	3	सहायक आयुक्त, रोहिणी क्षेत्र
			उप–निदेशक (वीएस), रोहिणी क्षेत्र
			प्रशासनिक अधिकारी, रोहिणी क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	सहायक आयुक्त, यातायात पुलिस, बाहरी रेंज
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	सहायक आयुक्त, दिल्ली पुलिस, उत्तर–पश्चिम
7	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	बुद्ध विहार फेज–I, मार्केट एसोसिएशन किराड़ी मार्केट ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन
8	गैर सरकारी संगठन– सदस्य	2	1. एक उड़ान फाउन्डेशन 2. नई सुबह की किरन
9	बैंक /स्ट्रीट बैंड्स संघ– सदस्य	1	सत्य दर्शन न्याय संगठन यूवा
10	स्ट्रीट बैंड्स (चयनित)–सदस्य	12 (चयनित 01)	सामान्य
			श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री छोटे लाल
			श्री धनन्जय सिंह सुपुत्र श्री शिव शंकर सिंह
			श्री आनन्द कुमार सिंह सुपुत्र श्री रमण सिंह
			श्री मनोहर लाल सुपुत्र श्री वजीरचन्द
			श्री मनोहर लाल शर्मा सुपुत्र श्री लीला धर
			श्री मनमोहन सुपुत्र श्री जनक कुमार
			महिला
			श्रीमती सुमन लता पत्नी श्री गुलशन कुमार

			अनुसूचित जाति	श्रीमती कैलाश देवी पत्नी श्री सुरेश चन्द साहनी
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) – सदस्य	1	अधिशासी अभियंता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, रोहिणी क्षेत्र	
12	समुदाय आधारित संगठन- सदस्य	1	नेहरू मेमोरियल ग्रामीण विकास संस्था	
13	रेजीडेंट वेल्फेयर संघ –सदस्य	2	निवासी कल्याण परिषद डी-6, सेक्टर-6, रोहिणी	
			लक्ष्मी विहार सुधार समिति	
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.	
	कुल	30		

**रोहिणी क्षेत्र, टी.वी.सी.-2
(44,45,46,47,48,49,50,51,52)**

क्र.स.	विभाग	प्रतिनिधि की संख्या	नामित/निर्वाचित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त- अध्यक्ष	1	उपायुक्त/रोहिणी क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, रोहिणी क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक टाउन प्लानर/रोहिणी क्षेत्र,
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि (मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, रोहिणी क्षेत्र उप-निदेशक (वी.एस.) अधिकारी, रोहिणी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, रोहिणी क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	सहायक आयुक्त, यातायात पुलिस, बाहरी रेंज
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	सहायक आयुक्त, दिल्ली पुलिस, बाहरी जिला
7	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	1. चैम्बर ऑफ ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री, फ्री लेंस, 12, प्रीटिंग प्रेस ऐरिया, नियर पंजाब केसरी, वजीरपुर, दिल्ली 2. श्री राम फल अवाम सब्जीमंडी मार्केट एसोसिएशन
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	इन्टरनेशनल मैनेजमेन्ट एंड एजुकेशन वेल्फेयर सोसायटी सुनैना देवी कल्याण समिति
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ – सदस्य	1	एन.ए.एस.वी.आई
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित 02)	सामान्य श्री उमेश चंद्र गुप्ता पुत्र श्री रामदास गुप्ता श्री मनु साह सुपुत्र श्री हकीम साह श्री शेखर सुपुत्र श्री जयचन्द श्री राजकुमार सुपुत्र श्री उड़ान सिंह श्री मुकेश कुमार सुपुत्र श्री श्रीराम

			महिला अनुसूचित जाति	श्री तेजपाल सिंह सुपुत्र श्री डुंगर सिंह श्री मति मधु देवी पत्नी श्री अनुज कुमार श्री जितेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री गणेश श्री अनुज कुमार सुपुत्र श्री राम शरण
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग— (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो)– सदस्य	1		अधिशासी अभियंता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, रोहिणी क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन– सदस्य	1		झुग्गी झोपड़ी सुधार समिति
13	रेजीडेन्ट वेल्फेयर संघ –सदस्य	2		1. आर.डब्ल्यू.ए. , जनशक्ति सुल्तानपुरी माजरा 2. सुल्तानपुरी डवलेपमेन्ट आर.डब्ल्यू.ए
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य	1		एस.डी.एम.
	कुल	30		

रोहिणी क्षेत्र, टी.वी.सी.–3
(53,54,55,56,57,58,59,60)

क्रं.स.	विभाग	प्रतिनिधि की संख्या	नामित/निर्वाचित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त – अध्यक्ष	1	उपायुक्त/रोहिणी क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी–सदस्य	1	उप–स्वास्थ्य अधिकारी, रोहिणी क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)– सदस्य	1	सहायक टाउन प्लानर/रोहिणी क्षेत्र,
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि (मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)–सदस्य	3	सहायक आयुक्त, रोहिणी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, रोहिणी क्षेत्र उप–निदेशक (पशु सेवाएं),
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	सहायक आयुक्त, यातायात पुलिस, बाहरी रेंज
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	सहायक आयुक्त, दिल्ली पुलिस, बाहरी जिला
7	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	साई बाबा मार्केट एसोसिएशन सेन्ट्रल मार्केट सेक्टर–07–08, रोहिणी एसोसिएशन
8	गैर सरकारी संगठन– सदस्य	2	सी.ई.एस समाधान अभियान
9	बैंक/स्ट्रीट बैंड्स संघ – सदस्य	1	हॉकर्स अधिकार सुरक्षा समिति
10	स्ट्रीट बैंड्स (चयनित)– सदस्य	12 (चयनित 06)	सामान्य श्री अशोक कुमार पुत्र श्री कपिल देव श्री ललन कुमार पुत्र श्री अनूप लाल भगत श्री चमन लाल पुत्र श्री नारायण श्री कालू राम पुत्र श्री बजरंग लाल श्री अजित यादव पुत्र श्री जगदीश यादव महिला श्रीमती आरती देवी पत्नी श्री जयप्रकाश चौधरी अनुसूचित जाति श्री जीत नारायण सुपुत्र श्री गणेश श्री राजेश कुमार हंस सुपुत्र श्री नोरवलाल हंस

11	सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी / स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग— (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) — सदस्य	1	अधिशाली अभियंता, रोहिणी क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन— सदस्य	1	एक उड़ान फाउण्डेशन
13	रेजीडेंट वेलफेयर संघ —सदस्य	2	1. ई-16, सेक्टर-8, आर.डब्ल्यू.ए 2. ई-02, सेक्टर-8, आर.डब्ल्यू.ए
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

यह अधिसूचना माननीय मंत्री (शहरी विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्वीकृति से जारी की जाती है।

विनोद कुमार, उप सचिव (श.वि)

NOTIFICATION

Delhi, the 17th September, 2019

No. F. 13(230)/UD/MB/2018/Pt File 1/(CD No. 021517474)/1923.—In supersession of all earlier notifications and in exercise of powers conferred under Section 22 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) read with Rule 14(3) of the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017, the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies the constitution of following ELEVEN Town Vending Committees for North Delhi Municipal Corporation, namely:-

CITY – SP ZONE

1. Town Vending Committee

Sl. No.	Department/Body	No. Of representative	Nominated/Elected Member
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner / CSPZ
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer/ CSPZ
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner/ CSPZ
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson/Chief Executive Officer) -Members	3	Additional Deputy Commissioner/ CSPZ Administrative Officer/ CSPZ Section Officer/CSPZ
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic) , Daryaganj
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP, Daryaganj
7	Market/Traders Associations- Members	2	Chamber of Trade and Industry, Freelance, 12 Bhartiya Udyog Vyapaar Mandal, 11, Gola Cottage
8	Non-Government Organisations - Members	2	YUVA Sunena Devi kalia Samiti
9	Banks/Association of Street Vendors - Member	1	National Hawker Federation
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General Sh. Santosh Singh S/O Sh. Jagdish Singh Sh. Murlidhar Tiwari S/O Sh. Ram Bhagat Tiwari Sh. Sanjay Kumar S/O Radhey Shyam Sh. Nijamuddin S/O Sh. Naneh Khan

				Sh. Abdul Aziz S/O Sh. Md. Waseel
				Sh. Mohd. Shahabuddin S/O Sh. Md. Shyad
			Women	Smt. Uma W/O Mansa Ram
				Ms. Asha D/O Murlidhar Tiwri
				Smt. Pushpa W/O Asha Nand Saluja
				Smt. Suman Dubey W/O Deepak Kumar Dubey
			SC	Sh. Shyam Lal S/O Sh. Ramavatar
				Sh. Raj Kumar S/O Sh. Radhey Shyam
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction) - Member	1	SE/CSPZ, North DMC	
12	Community based organizations - Member	1	Hawaker Adhikar Suraksha Samiti	
13	Resident Welfare Association- Members	2	RWA, Bihar Social Welfare Assosction, NABI B 7/1, MIG DDAFlat, RWA Sarai Khalil, Sadar Bazar, Delhi.	
14	Revenue Department, GNCTD- Member	1	SDM	
	Total	30		

2. Karol Bagh Zone

TVC (Ward No. 24,25,26,27,28,40,41,42,43)

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Karol Bagh Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer ,Karol Bagh Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) - Member	1	Assistant Town Planner/Karol Bagh Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Addl.Dy. Commissioner, Karol Bagh Zone	
			Administrative Officer	
			Zonal Superintendent	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP(Traffic), Police Station, Patel Nagar, New Delhi	
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP, (Police), Karol Bagh Delhi	
7	Market/Traders Associations- Members	2	Fruit Market Association	
			<u>Paharganj Shopkeeper Welfare Association</u>	
8	Non-Government Organisations- Members	2	Bapa Nagar Vikas Sansth	
			Sunena Devi Kalyan Simiti	
9	Banks/Association of Street Vendors - Member	1	NASVI	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Veer Bhadra Maurya S/o Sh. Moti
				Sh. Amar Nath S/o Sh. Devi Ram
				Sh. Kundan Lal S/o Sh. Roop Ram
				Sh. Pancham Chaurasiya S/o Sh. Shiv Kumar
				Sh. Amarjit Verma S/o Sh. Chottey Lal
				Sh. Ram Avtar S/o Sh. Raja Ram
			Women	Smt. Bimla Devi w/o Sh. Badri lal
				Smt. Basanti Devi w/o Sh. Ratan lal

				Smt. Moharo Devi w/o Sh. Om Prakash
				Smt. Gita W/o Jagdish
			SC	Sh. Satish Kumar, S/o Trilok Chander
				Sh. Ashok Kumar, S/o Tej Remji
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1		Superintendent Engineer, (North DMC)/Karol Bagh Zone
12	Community based organizations- Member	1		Footpath Vikas Ekta Manch
13	Resident Welfare Association- Members	2		Chuna Mandi RWA
				RWA, Bapa Nagar, Block-E, Karol Bagh M-858871693
14	Revenue Department, GNCTD- Member	1		SDM
	Total	30		

3. Keshav Puram Zone TVC-I

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Keshav Puram Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Keshav Puram Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Chief Town Planner, North-DMC	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	1. Assistant Commissioner, Keshav Puram Zone 2. Administrative Officer, Keshav Puram Zone 3. Zonal Superintendent, Keshav Puram Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP Traffic (West)	
6	Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP, Paschim Vihar	
7	Market/Traders Associations - Members	2	Shalimar Bagh Vyapar CD Block market	
8	Non-Government Organisations - Members	2	Samadhan Abhiyan Nazdeek	
9	Banks/Association of Street Vendors - Member	1	Rajiv Gandhi The Bazari Association	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Chander Parkash Nagpal S/o Sh. Nandlal Sh. Dharam Pal Gupta s/o Sh. Sewa ram Gupta Sh. Durga Prashad Sehgal S/o Sh. Devi Dayal Sh. Rajinder Kumar Biblani S/o Sh. Bulaki Ram Biblani Sh. Ashwani Kumar S/o Sh. Om Prakash Sh. Satpal S/o Sh. Baba Singh
			Women	Smt. Mamta Devi w/o Sh. Ravi Khanna Smt. Shanta Chadha w/o Sh. Mohan Lal Chadha Smt. Radha Gupta w/o Sh. Dharma Pal Gupta Smt. Anjali Gupta w/o Sh. Manoj Kumar

				Gupta
			SC	Sh. Dalbir Singh S/o Sh. Mangu Ram
				.Sh. Krishan Pal S/o Sh.Asha Ram
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	SE/KPZ North DMC	
12	Community based organizations - Member	1	Janhit Society for Welfare	
13	Resident Welfare Association - Members	2	RWA cb Block Shalimar Bagh	
			RWA Chopal Wali Gali	
14	Revenue Department, GNCTD - Member	1	SDM	
	Total	30		

4. KESHAV PURAM ZONE – TVC-II

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Keshav Puram Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Keshav Puram Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Chief Town Planner, North-DMC	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) - Members	3	Assistant Commissioner, Keshav Puram Zone	
			Administrative Officer, Keshav Puram Zone	
			Zonal Superintendent Keshav Puram Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP Traffic, Keshav Puram	
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP , Ashok Vihar	
7	Market/Traders Associations- Members	2	Kolhapur Road	
			Kamla Nagar	
8	Non-Government Organisations- Members	2	Mazdur Rakshak Samiti	
			Sunena Devi Kalyan Samiti	
9	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	Delhi Rehri Patri Weekly Bazar Association	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	1. Sh. Rahees Ahmad S/o Sh. Akbar Husaaain
				2 Sh. Baldev Raj Sharma S/o Sh. Bhora ram Sharma
				3. Sh. Ramesh Chand S/o Sh. Gopi Ram
				4 Sh. Om Parkash S/o Sh. Hiralal
				5. Sh. Brahmanand Gupta S/o Sh.Nathu ram Gupta
				6. Sh. Chander Pal S/o Sh. Ganga Ram
			Woman	7. Smt. Bhagwati Devi w/o Sh. Sitaram
				8 Smt. Angoori w/o Sh.Nathu Ram
				9. Smt. Saraswati Devi W/o Sh. Kajod ram
				10 Smt. Gaytri Devi w/o

			Sh. Janardan
		SC	11. Sh. Tej Ram Bansiwala S/o Sh. Ram Swaroop
			12. Sh. Manohar Lal S/o Sh. Devi Sahai
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Superintendent Engineer, Keshav Puram Zone
12	Community based organizations- Member	1	Janhit Society for Welfare
13	Resident Welfare Association- Members	2	MCD Colony Azadpur RWA
			Gulabi Bagh RWA
14	Revenue Department, GNCTD- Member	1	SDM
	Total	30	

5. TVC-I (NARELA ZONE)

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner/Narela Zone
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer/Narela Zone
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner / Narela Zone
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	1. Assistant. Commissioner/Narela Zone 2. Deputy Director (VS)/Narela Zone 3. Administrative Officer/ Narela Zone
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic), Narela
6	Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP (Narela)
7	Market/Traders Associations- Members	2	Alipur Market Welfare Association Narela Food Grain Association
8	Non-Government Organisations - Members	2	CES PEACE
9	Banks/Association of Street Vendors - Member	1	Narela Sabzi Vikreta Sangh
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General Sh. Pawan S/o Sh. Shri Bhagwan Sh. Gulsher s/o Sh. Shafi Ahmad Sh. Sanjay Yadav S/o Sh. Laxmi Yadav Sh. Vinod Kumar S/o Sh. Garib Dass Sh. Mahadev s/o Sh. Ram Chander Sh. Saroj Kumar S/o Sh. Lalender Kishore Woman Ms. Rani w/o Sh. Udal Singh Ms. Ishrat Jahan w/o Sh. Sakawat Husaain Smt. Malti w/o Sh. Rajesh Kumar Smt. Daropti w/o Sh. Budh Prakash SC Sh. Yogesh Kumar S/o Sh. Attar Singh Sh. Rajesh Kumar S/o Sh. Shobhnath
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction) - Member	1	Executive Engineer/Narela Zone

12	Community based organizations - Member	1	Rehri Patri Garib Kalyan Samiti
13	Resident Welfare Association- Members	2	Budhpur Vikas Resident Welfare Association Handi Pana Welfare Association.
14	Revenue Department, GNCTD- Member	1	SDM
	Total	30	

6. TVC-II (NARELA ZONE)

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner/Narela Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer/Narela Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner / Narela Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	1. Assistant. Commissioner/Narela zone 2. Deputy Director (VS)/Narela Zone 3. Administrative Officer/ Narela Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic)/Nangloi	
6	Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP, Nangloi	
7	Market/Traders Associations- Members	2	Chamber of Trade and Industry Freelance, 12 Printing Press Area, Near Punjab Kesri Wajirpur, Delhi Machali Market Association, JJ Colony Bawana	
8	Non-Government Organisations- Members	2	CES PEACE	
9	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	Nareal Sabzi Vikreta Sangth	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Kasim S/o Sh. Abdul Vahid Sh. Ravinder Rastogi S/o Sh. Daya Prakash Sh. Bajrang Lal S/o Sh. Kishan Chan
			Woman	-----
			SC	Sh. Inder Kumar S/o Sh. Puspender Kumar
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer, Narela Zone	
12	Community based organizations-Member	1	Rehri patri Garib Kalyan Samiti	
13	Resident Welfare Association- Members	2	Divine RWA, Sector 25 Rohini Krishan Colony Welfare Association	
14	Revenue Department, GNCTD- Member	1	SDM	
	Total	30		

7. TVC-I ROHINI ZONE (WARD NO. 24,25,26,27,28,40,41,42,43)

Sl. No.	Department/Body	No. Of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Rohini Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Rohini Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Asstt. Town Planner / Rohini Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) - Members	3	1. Asstt. Commissioner, Rohini Zone 2. Deputy Director (VS), Rohini Zone 3. Administrative Officer, Rohini Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP, Traffic, Outer Range	
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP, (Police), North-West	
7	Market/Traders Associations- Members	2	Budh Vihar Ph-I Market Association Kirari market Trader Welfare Association	
8	Non-Government Organisations- Members	2	Satya Darshan Nyay Sansthan YUVA	
9	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	NASVI	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Ashok Kumar S/o Sh.Chhote lal Sh. Dhanajay Singh S/o Sh. Shiv Shankar Singh Sh. Anand KumarSingh S/o Sh. Raman Singh Sh. Manohar lal S/o Sh. Wazir Chand Sh. Manohar Lal Sharma S/o Sh. Leela Dhar Sh. Manmohan S/o Sh. Janak Kumar
			Women	1. Smt. Suman Lata W/o Sh. Gulshan Kumar Mt. Kailash Devi w/o Sh. Suresh Chand Saini'
			SC	---
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer, (North DMC)/Rohini Zone	
12	Community based organizations-Member	1	Nehru memorial Gramin Vikas Sansthan	
13	Resident Welfare Association- Members	2	Niwasi Kalyan Parishad D-6, Sector 6 Rohini Laxmi Vihar Sudhar Samiti	
14	Revenue Department, GNCTD- Member	1	SDM	
	Total	30		

8. TVC-II ROHINI ZONE (WARD NO. 44,45, 46,47 48,50,51,52)

Sl. No.	Department/Body	No. Of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Rohini Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Rohini Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Asstt. Town Planner / Rohini Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Asstt. Commissioner, Rohini Zone	
			Deputy Director (Veterinary Services)	
			Administrative Officer, Rohini Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP, Traffic, Outer Range	
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP, (Police), Outer District	
7	Market/Traders Associations- Members	2	Chamber of Trade and Industry, Freelance, 12 Printing Press Area, Near Punjab Kesri Wajirpur, Delhi	
			Shri Ram Fal Avam Sabzi Mandi market Association	
8	Non-Government Organisations-Members	2	International management and Educational Welfare Society	
			Sunena Devi kalia Samiti	
9	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	NASVI	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	1. Sh. Umesh Chand Gupta S/o Sh. Ram Das Gupta
				Sh. Manu Shah S/o Sh. Hakim Shah
				Sh. Shekhar S/o Sh. Jai Chand
				Sh. Rajkumar S/o Sh. Udhan Singh
				Sh. MukeshKumar S/o Sh. Shri Ram
				Sh. Tejpal Singh S/o Sh. Dungar Singh
			Women	1. Smt. Madhu Devi W/o Sh. Anuj Kumar
			
			
			
			SC	Sh. Jitender Kumar S/o Sh. Sh. Ganesh
				Sh. Anuj Kumar S/o Sh. Ram Sharan
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)-Member	1	Executive Engineer/North DMC/Rohini Zone	
12	Community based organizations-Member	1	Jhuggi Jhopdi Sudhar Samiti	
13	Resident Welfare Association-Members	2	RWA, Jan Shakti Sultan Pur mazra	
			Sultanpuri Development RWA	
14	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM	
	Total	30		

9. TVC-III ROHINI ZONE (WARD NO 53,54,55,56,67,68,69,60)

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Rohini Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Rohini Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Asstt. Town Planner / Rohini Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) - Members	3	Asstt. Commissioner, Rohini Zone	
			Deputy Director (Veterinary Services)	
			Administrative Officer, Rohini Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP, Traffic, Outer Range	
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP, (Police), Outer District	
7	Market/Traders Associations- Members	2	Sai Baba Market Association	
			Central market Sector 7 -8, Rohini Association	
8	Non-Government Organisations - Members	2	CES	
			Smadhan Abhiyan	
9	Banks/Association of Street Vendors - Member	1	Hawker Adhikar Suraksha Samiti	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	1. Sh. Ashok Kumar S/o Sh. Kapil Dev
				2. Sh. Lalan Kumar S/o Sh. Anup Lal Bhagat
				3. Sh. Chaman Lal S/o Sh. Narayan
				4. Sh. Kalu Ram S/o Sh. Bajrang Lal
				5. Sh. Ajit Yadav S/o Sh. Jagdish Yadav
				6 Ram Sagar S/o Sh. Sundar Lal
			Women	7 Smt. Arti Devi W/o Sh. Jai Prakash Chaudhary
			
			
			
			SC	8 Sh. Jeet Narain S/o Sh. Ganesh
				9 Sh. Rajesh Kumar Hans S/o Sh. Norvelal Hans
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction) - Member	1	Executive Engineer/North DMC/Rohini Zone	
12	Community based organizations- Member	1	Ek Udaan Foundain	
13	Resident Welfare Association- Members	2	E-16, Sector 8 RWA	
			E-2, Sector 8 RWA	
14	Revenue Department, GNCTD- Member	1	SDM	
	Total	30		

10. TVC-I CIVIL LINES ZONE (WARD NO 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, Civil Lines Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer, Civil Lines Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Civil Lines Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Civil Lines Zone Dy. Director (Veterinary Services), CLZ Administrative Officer, Civil Lines Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP(Traffic), Keshav Puram	
6	Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP(Ashok Vihar)	
7	Market/Traders Associations- Members	2	Sanyukt Vypar Sangthan, Sant Nagar Bjrm Market Association Jahngir Puri	
8	Non-Government Organisations- Members	2	CORE foundation PEACE	
9	Banks/Association of Street Vendors - Member	1	Rajiv Gandhi Tehbazari Association	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Vinod Kumar S/o Sh. Bindeshwari Prasad Sh. Har Prasad S/o Sh. Chhote Lal Sh. Ramjeet Gupta S/o Sh. Chikuri Gupta
			Woman	----
			SC	Smt. Maya Devi w/o Sh. Bhanwar Lal Sh. Joginder S/o Sh. Ram Singh
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	SE/CLZ	
12	Community based organizations- Member	1	Pehli Awaz	
13	Resident Welfare Association- Members	2	RWA Vashishst Enclave, Burari Shashtri Park Welfare Association, Burari.	
14	Revenue Department, GNCTD- Member	1	SDM	
	Total	30		

11. CIVIL LINES TVC-2 (WARD NO. 16,17,18,19,20,21,22,23,& 83N)

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, Civil Lines Zone	

2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer, Civil Lines Zone
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Civil Lines Zone
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) - Members	3	Assistant Commissioner, Civil Lines Zone Dy. Director (Veterinary Services), CLZ Administrative Officer, Civil Lines Zone
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP(Traffic),
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Jahangirpuri)
7	Market/Traders Associations- Members	2	Chamber of Trade and Industry, Freelance, 12 Swaroop Nagar Market Association
8	Non-Government Organisations- Members	2	PEACE Hawker Foundation Delhi
9	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	National Hawker Federation Delhi
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General Sh. Mahesh Kumar S/o Sh. Jile Singh Sh. Anil Kumar S/o Sh. Satpal Sh. Rakesh Kalra S/o Sh. Balmukand Sh. Balbir Arora S/o Sh. Harman Singh Sh. Vinod Kumar Tomar S/o Sh. Ham Singh Tomar Sh. Shyam Dutt S/o Sh. Ganesh Dutt Woman Smt. Neelam w/o Sh. Baldev Smt. Savitri w/o Sh. Jagdish Smt. Lilawati w/o Sh. Jagdish Smt. Rekha w/o Sh. Sanjay SC Sh. Dharm Singh S/o Sh. PuranSingh Sh. Gurdayal Singh S/o Sh.Om Prakash
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction) - Member	1	SE/CLZ
12	Community based organizations-Member	1	Pahel Drishti
13	Resident Welfare Association- Members	2	G Block, RWA, Swaroop nagar Prarab Resident Welfare.
14	Revenue Department, GNCTD- Member	1	SDM
	Total	30	

This notification is issued with the approval of the Hon'ble Minister (Urban Development) Government of NCT of Delhi

VINOD KUMAR, Dy. Secy. (M.B.)

अधिसूचना

दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

फा.सं.13/(230)/श.वि./एमबी/2018/पार्ट फाईल/सी.डी.न.-021517474/1924-पूर्व की सभी सूचनाओं अधिक्रमण तथा पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के 7) की धारा 22 के साथ पठित दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियम 14 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए निम्नलिखित नौ (09) नगर विक्रय कमेटियों के गठन की अधिसूचना जारी करती है:-

मध्य क्षेत्र

नगर विक्रय कमेटी -1 (वार्ड संख्या एस-55 से एस-60, एस-82 से एस-85, एवं एस-89 से एस-91)

क. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-मध्य क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर नियोजक, मध्य क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित आधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, मध्य क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं, मध्य क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, मध्य क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी (यातायात पुलिस), दक्षिण पूर्वी जिला
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी, लाजपत नगर
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2 (नामित-01)	1. भोगल व्यापार मंडल 2. नेहरू नगर वेल्फेयर मार्केट एसोसिएशन
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	सेन्टर फॉर सिविल सोसायटी फुटपाथ विक्रेता मंच
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1	रेहड़ी पटरी फुटपाथ विक्रेता एकता मंच
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12	सामान्य श्री चन्द्र भान गुप्ता सुपुत्र श्री मंगलसेन गुप्ता श्री साहब आलम सुपुत्र श्री सफी मोहम्मद श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता सुपुत्र श्री शंकर लाल गुप्ता श्री श्रीराम सुपुत्र श्री करन सिंह श्री विनोद कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री ब्रह्मानन्द गुप्ता श्री चन्द्रपाल सिंह सुपुत्र श्री कल्याण सिंह महिला श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री किशन तोमर श्रीमती दिपाली पत्नी श्री पातीराम श्रीमती राधा देवी (एस सी) पत्नी श्री हंसराज श्रीमती मीना पत्नी श्री बाबू खान अनु० जाति श्री नीरज कुमार सुपुत्र श्री गिरिराज श्री सुभाष कुमार सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) -सदस्य	1	अधिशायि अभियन्ता (एम- I), मध्य क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन/ - सदस्य	1	किएटिव फाउण्डेशन
13	रेजीडेंट वेल्फेयर संघ -सदस्य	2	हरि नगर आश्रम, मैन मथुरा रोड, आर.डब्ल्यू.ए जाटव वेल्फेयर एसोसिएशन
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

मध्य क्षेत्रनगर विक्रय कमेटी -2 (वार्ड संख्या एस-92 से एस 104.)

क्र. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-मध्य क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर नियोजक, मध्य क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित आधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, मध्य क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं, मध्य क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, मध्य क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी (यातायात पुलिस), दक्षिण पूर्वी जिला
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी, सरिता विहार
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	1. जोगा बाई मार्केट एसोसियेशन, 2. बटाला हाउस मार्केट एसोसियेशन
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	1. पी.ई.ए.सी.ई. 2. सी.ई.एस.
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1	रेहड़ी पटरी एकता मंच
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-09)	सामान्य श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री प्रकाश श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री धन सिंह श्री राम गोपाल गुप्ता सुपुत्र श्री झम्मन लाल गुप्ता श्री प्रमोद कुमार राधव सुपुत्र श्री रामबीर सिंह श्री राम शंकर गुप्ता सुपुत्र श्री राजा राम गुप्ता श्री रुपेन्द्र कुमार झा सुपुत्र श्री सुधीर चन्द झा महिला श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बाबूलाल श्रीमती लच्छो देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री राम नारायण श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री रनवीर अनु० जाति श्री लाल सिंह पुत्र श्री दल सिंह श्री राजेश पुत्र श्री हरि प्रसाद
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) -सदस्य	1	अधि"गासि अभियन्ता (एम-IV), मध्य क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन/ - सदस्य	1	नेचुरल केयर फाउण्डेशन
13	रेजीडेन्ट वेल्फेयर संघ -सदस्य	2	1. शाहीन बाग, आर डब्ल्यू ए, 2. स्वच्छ भारत आर. डब्ल्यू ए
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

दक्षिणी क्षेत्र**नगर विक्रय कमिटी -1 (वार्ड संख्या एस-61 से एस 72)**

क. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-दक्षिणी क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर नियोजक, दक्षिणी क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित आधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं, दक्षिणी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी (यातायात पुलिस)
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी, दक्षिणी पश्चिमी जिला
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	गौतम नगर व्यापार मंडल, मैन रोड, नई दिल्ली-110049 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन मार्केट एसोसिएशन
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	युवा सुनैना देवी कल्याणी
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1	नेशनल हॉकर्स फेडरेशन
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-09)	सामान्य श्री दर्शन कुमार सुपुत्र श्रीसोहन पाल श्री सुराज सिंह सुपुत्र श्री जगन सिंह श्री कुमदेश कुमार गुप्ता सुपुत्र स्व० जे पी गुप्ता श्री मुकेश कुमार राधव सुपुत्र श्री गंगाधर श्री कान्ची लाल सुपुत्र श्री नन्द राम श्री गिरेन्द्राण्डित सुपुत्र स्व० रामवृक्ष पंडित महिला श्रीमती मुनेश देवी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह श्रीमती नाजरा बानो पत्नी मोहम्मद मोईन श्री मति महेश्वरी श्री मति अत्तर बासा अनु० जाति श्री नरेश कुमार सुपुत्र श्री राम करण श्री मनोज कुमार बंजारा
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) -सदस्य	1	श्री समिन्दर नागी, अधिशासि अभियन्ता (एम-1), दक्षिणी क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन/ - सदस्य	1	मालवीय नगर एसम्बली स्ट्रीट वैंडर एसोसिएशन
13	रेजिडेन्ट वेलफेयर संघ -सदस्य	2	1. आर.डब्ल्यू.ए., सर्वप्रिय विहार रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन, बी-4, ब्लॉक, आर.डब्ल्यू.ए
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

दक्षिणी क्षेत्र

नगर विक्रय कमैटी -2 (वार्ड संख्या एस-73 से एस 81 एवं एस-86 से एस 88)

क. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-दक्षिणी क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर नियोजक, दक्षिणी क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई.ओ. द्वारा नामित आधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं, दक्षिणी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी (यातायात पुलिस)
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी, दक्षिणी जिला, होज खास
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	1 नेहरू प्लेस ओखला रेड एंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन, नेहरू प्लेस 2 शिव मन्दिर मार्केट एसोसिएशन, चिराग दिल्ली।
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	समाधान अभियान पी.ई.ए.सी.ई
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1	सुनैना देवी कल्याण समिति
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-11)	सामान्य श्री अनिल कुमार चौरसिया सुपुत्र श्रीराजा राम चौरसिया श्री महेश कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री लखपत राम गुप्ता श्री लक्ष्मी नारायण सुपुत्र श्री मंगल राम श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा सुपुत्र श्री जुगल किशोर शर्मा श्री देवेश कुमार साहू सुपुत्र श्री नेम चन्द साहू श्री सुभाष चन्द नारंग सुपुत्र श्री हंष राज महिला श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री तारा चन्द सुश्री राज लक्ष्मी सुपुत्री नीम सिंह सुश्री मुन्नी देवी अनु० जाति श्री धरम पाल सिंह सुपुत्र श्री बल राम श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री धरम सिंह
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) -सदस्य	1	श्री आर.पी.मीना, अधिशासि अभियन्ता (एम-III), दक्षिणी क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन/ - सदस्य	1	सिटीजन एलायंस, 147 मंदाकिनी एन्क्लेव
13	रेजिडेंट वेलफेयर संघ -सदस्य	2	1. एस ब्लॉक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जी.के. व्यापारी संगठन 2. प्रेमा विकास समिति खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

पश्चिमी क्षेत्र

नगर विक्रय कमैटी -1 (वार्ड संख्या एस-1 से एस 10)

क. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-पश्चिमी क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, पश्चिमी क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर नियोजक, पश्चिमी क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित आधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, पश्चिमी क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं, पश्चिमी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, पश्चिमी क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी (यातायात पुलिस), पश्चिमी क्षेत्र
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी, पश्चिमी क्षेत्र
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	मेन मार्केट मादीपुर व्यापार संगठन अम्बेडकर मार्केट संगठन
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	हॉकर फाउण्डेशन दिल्ली चौधरी मुंशी राम जन कल्याण समिति
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1	नेशनल हॉकर्स फेडरेशन
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-04)	सामान्य श्री रवि कुमार सुपुत्र श्रीनन्द लाल श्री राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री वकील चन्द --- --- --- --- महिला श्रीमती सोनिया परमार पत्नी श्री देव आशीष --- --- --- अनु० जाति श्री रूप राम सुपुत्र श्री राम चन्द्र ---
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) -सदस्य	1	श्री बी.एस.यादव, अधिशासि अभियन्ता (एम-1), पश्चिमी क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन/ - सदस्य	1	दिल प्रान्तीय रायगर पंचायत
13	रेजीडेन्ट वेल्फेयर संघ -सदस्य	2	शिवाजी एन्क्लेव वेल्फेयर एसोसिएशन नवहेतना सोसायटी
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

पश्चिमी क्षेत्र**नगर विक्रय कमैटी -2 (वार्ड संख्या एस-11 से एस 20)**

क. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त, पश्चिमी क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, पश्चिमी क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर नियोजक, पश्चिमी क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित आधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, पश्चिमी क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं, पश्चिमी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, पश्चिमी क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी (यातायात पुलिस), पश्चिमी क्षेत्र
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी, पश्चिमी क्षेत्र
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	पुरानी खोखा यूनियन सेन्ट्रल मार्केट, तिलक नगर गुरुद्वारा ऑटो मार्केट सोसायटी
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	सेन्टर फॉर सिविल सोसायटी वॉयस ऑफ वॉसयलेस
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1	दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पटरी खोमचा हॉर्कर्स यूनियन
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-08)	सामान्य श्री किशोर गुलशानी सुपुत्र श्रीप्रीतम सिंह श्री अश्वनी कुमार सेठी सुपुत्र श्री किशन लाल श्री लाल चन्द चौरसिया सुपुत्र श्री सिया राम चौरसिया श्री हरीश आरोड़ा सुपुत्र रोशन लाल आरोड़ा श्री जय प्रकाश सुपुत्र श्री राम नाथ श्री द्वारका दास चावला सुपुत्र श्री मोती राम महिला श्रीमति सुनिता पत्नी श्री ओम प्रकाश श्रीमति ओमवती पत्नी श्री नन्नू मल श्रीमति विमला पत्नी श्री रमेश सिंह श्रीमति रेखा देवी चौरसिया पत्नी श्री मनीष कुमार चौरसिया अनु० जाति श्री मानिक चन्द सुपुत्र श्री बादशाह श्री नैन सिंह सुपुत्र श्री खमानी
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) -सदस्य	1	श्री.एस.ई.यादव, अधिशासि अभियन्ता (एम-III), पश्चिमी क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन/ - सदस्य	1	सर्वधर्म सेवा समिति
13	रेजीडेन्ट वेल्फेयर संघ -सदस्य	2	1. फेडरेशन ऑफ आर.डब्ल्यू.ए., तिलक नगर,- 98100561562 2. श्री गुरु सभा अजय ऐन्कलेव-9810122722
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

पश्चिमी क्षेत्र

नगर विक्रय कमैटी -3 (वार्ड संख्या एस-21 से एस 29)

क. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-पश्चिमी क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, पश्चिमी क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर नियोजक, पश्चिमी क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि (मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई. औ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, पश्चिमी क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं, पश्चिमी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, पश्चिमी क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी (यातायात पुलिस)
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी, द्वारका जिला
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	ट्रेडर एसोसिएशन उत्तर नगर उत्तर नगर मैन रोड मार्केट एसोसिएशन
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	सेन्टर फॉर सिविल सोसायटी युवा
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1	दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पटरी खोमचा यूनियन
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-03)	सामान्य श्री गुंजन कुमार राय सुपुत्र श्री अनिल कुमार राय --- --- --- --- --- महिला --- --- --- --- अनु० जाति श्री ब्रिजेश सुपुत्र श्री राम बाबू श्री राजु राय दास सुपुत्र श्री सतपाल
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) -सदस्य	1	श्री. निरंजन डेबोरिया, अधिशासि अभियन्ता (एम-पअ), पश्चिमी क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन/ - सदस्य	1	सर्वधर्म सेवा समिति
13	रेजीडेन्ट वेल्फेयर संघ -सदस्य	2	1. आर.डब्ल्यू.ए. न्यू जनकपुरी, 8510005616 2. आर.डब्ल्यू.ए. डी.डी.ए. फ्लैट बिन्दापुर, 9910865052
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

नजफगढ़ क्षेत्रनगर विक्रय कमैटी -1 (वार्ड संख्या एस-30 से एस-42.)

क. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-नजफगढ़ क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-चिकित्सा-अधिकारी नजफगढ़ क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार-1, नजफगढ़ क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त-1, नजफगढ़ क्षेत्र उप-स्वास्थ्य अधिकारी, नजफगढ़ क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, नजफगढ़ क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी (यातायात पुलिस), द्वारका जिला
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी, द्वारका जिला
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	मटियाला रोड मार्केट एसोसिएशन मार्केट एसोसिएशन सेक्टर-12, द्वारका
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	1. सामाजिक एकता फाउन्डेशन 2. लाल बहादुर शास्त्री फाउन्डेशन
9	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1	मंगलापुरी सब्जी एवं फल विक्रेता संघ
10	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-05)	सामान्य श्री दिलीप साहू सुपुत्र श्रीराम विलास साहू श्री हरी ओम सुपुत्र श्री मेवा राम श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री राम विलास साहू श्री अशोक कुमार गुप्ता सुपुत्र श्री रामधर साओ श्री प्रभाकर कुमार सुपुत्र श्री दुलार चन्द शॉ श्री सतीश चन्दर सुपुत्र श्री ओम प्रकाश महिला श्रीमती कामिनी देवी पत्नी श्री राम चन्द्र शाह श्रीमती सोना पत्नी श्री स्व० किशन लाल श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री हरि राम श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री मोहन लाल अनु० जाति श्री मल्हन लाल सुपुत्र श्री हरकेश श्री विनोद कुमार सुपुत्र श्री श्रीपाल सिंह
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) -सदस्य	1	श्री दीपक गहलोत, अधिशासि अभियन्ता (एम-1), नजफगढ़ क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन/ - सदस्य	1	राईज फाउन्डेशन, फ्लेट 94, द्वितीय तल, पॉकेट 1 एवं 2, सेक्टर-3, डी.डी.ए. फ्लेट, द्वारका, नई दिल्ली-110075
13	रेजीडेन्ट वेल्फेयर संघ -सदस्य	2	1. आर.डब्ल्यू.ए. इन्द्रा पार्क-9818015404 2. आर.डब्ल्यू.ए. नाला पत्री, गली नं. 3, द्वारका-9718075603
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

नजफगढ़ क्षेत्र

नगर विक्रय कमैटी -2 (वार्ड संख्या एस-43 से एस-54.)

क. सं०.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नामांकित/चयनित सदस्य
1	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-नजफगढ़ क्षेत्र
2	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-चिकित्सा-अधिकारी नजफगढ़ क्षेत्र
3	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार-1, नजफगढ़ क्षेत्र
4	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित आधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त-1, नजफगढ़ क्षेत्र उप-स्वास्थ्य अधिकारी, नजफगढ़ क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, नजफगढ़ क्षेत्र
5	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी (यातायात पुलिस),
6	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	एसीपी, डाबरी जिला
7	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	सादनगर नगर मार्केट एसोसिएशन शॉपकीपर मार्केट एसोसिएशन, महावीर एन्क्लेव
8	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	मानव चिन्तन पथ लाल बहादुर शास्त्री फाउण्डेशन
9	बैंक/स्ट्रीट बैंडर्स संघ - सदस्य	1	दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पटरी खोमचा खोखा एसोसिएशन
10	स्ट्रीट बैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-02)	सामान्य श्री रामनिवास गुप्ता सुपुत्र श्रीनन्कू लाल गुप्ता श्री रमेश राय सुपुत्र श्री कुशो राय श्री हरि ओम गुप्ता सुपुत्र श्री किशन गुप्ता श्री राजेश कुमार साहू सुपुत्र श्री राम विलास साहू श्री विजय गुप्ता सुपुत्र श्री राजकुमार गुप्ता श्री हरिलाल सुपुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा महिला श्रीमति विष्णा देवी पत्नी श्री दिनेश कुमार श्रीमति विमलेश देवी कानू पत्नी श्री सिपाही कानू श्रीमति शीला देवी पत्नी श्री बच्चू लाल श्रीमति ममता देवी पत्नी श्री दिलीप साहू अनु० जाति श्री सुन्दर लाल सुपुत्र श्री चित्रमल
11	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) -सदस्य	1	श्री दिपक गहलोत, अधिशासी अभियन्ता (एम-1), नजफगढ़ क्षेत्र
12	समुदाय आधारित संगठन/ - सदस्य	1	ग्राम विकास मंडल, घुमनहेड़ा
13	रेजीडेंट वेल्फेयर संघ -सदस्य	2	1. जन कल्याण समिति, नजफगढ़-9599630860 2. आर.डब्ल्यू.ए. नजफगढ़ पार्क - 9212414142
14	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम.
	कुल	30	

यह अधिसूचना माननीय मंत्री (शहरी विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्वीकृति से जारी की जाती है।

विनोद कुमार, उप सचिव (श.वि)

NOTIFICATION

Delhi, the 17th September, 2019

No.F.13(230)/UD/MB/2018/Pt File 1/(CD NO. 021517474)/1924.—In supersession of all earlier notifications and in exercise of powers conferred under Section 22 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) read with Rule 14(3) of the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017, the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies the constitution of following NINE Town Vending Committees for South Delhi Municipal Corporation, namely:-

Central Zone**1. TVC-1 (Ward No. S-55 to S-60, S-82 to S-85 and S-89 to S-91)**

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, Central Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer, Central Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Central Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) –Members	3	Assistant Commissioner, Central Zone Dy. Director (Veterinary Services), CNZ Administrative Officer, Central Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic), South East District	
6	Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP Lajpat Nagar	
7	Market/Traders Associations - Members	2	1. Bhogal Vyapar mandal 2. Nehru Nagar Welfare Market Association.	
8	Non-Government Organisations - Members	2	Centre for Civil Society Footpath Vikreta Munch	
9	Banks/Association of Street Vendors- Member	1	Rehri patri Footpath Vikreta Ekta manch	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Chanderbhan Gupta S/o Sh. Mangal Sen Gupta Sh. Sahab Alam S/o Sh. Safi Mohd. Sh. Chander Prakash Gupta S/o Sh. Shankar Lal Gupta Sh. Sri Ram S/o Sh. Karan Singh Sh. Vinod Kumar Gupta S/o Sh. Brahmanand Gupta Sh. Chanderpal Singh S/o Sh. Kalyan Singh
			Women	Mrs. Prem Lata W/o Sh. Kishan Tomar Mrs. Dipali W/o Sh. Pati Ram Mrs. Radha Devi(SC) W/o Sh. Hansraj Mrs. Meena W/o Sh. Babu Khan
			SC	Sh. Neeraj Kumar S/o Sh. Giri Raj Sh. Subhash Kumar S/o Sh. Gyan Chand
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer (M)-I, Central Zone	
12	Community based organizations-Member	1	Creative Foundation	

13	Resident Welfare Association-Members	2	Hari Nagar Ashram, Main Mathura Road, RWA Jatav Welfare Association.
14	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM
	Total	30	

Central Zone**2. TVC-2 (Ward No. S-92 to S-104)**

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, Central Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer, Central Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Central Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Central Zone Dy. Director (Veterinary Services), CNZ Administrative Officer, Central Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic), South East District	
6	Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP Sarita Vihar	
7	Market/Traders Associations - Members	2	Joga Bai Market Association Batala House Market Association	
8	Non-Government Organisations - Members	2	i) PEACE ii) CES	
9	Banks/Association of Street Vendors - Member	1	Rehri Patri Ekta Manch	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Anil Kumar S/o Sh. Prakash Sh. Om Prakash S/o Sh. Dhan Singh Sh. Ram Gopal Gupta S/o Sh. Jhamman Lal Gupta Sh. Pramod Kumar Raghav S/o Sh. Rambir Singh Sh. Ram Shankar Gupta S/o Sh. Raja Ram Gupta Sh. Rupender Kumar Jha S/o Sh. Sudhir Chand Jha
			Women	Mrs. Maya DeviW/o Sh. Babulal Mrs. Lachho Devi W/o Sh. Jagdish Prasad Mrs. Sumitra Devi W/o Sh. Ram Narayan Mrs. Kiran Devi w/o Ranbir
			SC	Sh. Lal Singh s/o Dal Singh Sh. Rajesh s/o Hari Prasad
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer (M)-IV, Central Zone	
12	Community based organizations - Member	1	Natural Care Foundation	

13	Resident Welfare Association - Members	2	Shaheen Bagh, RWA Swach Bharat RWA
14	Revenue Department, GNCTD - Member	1	SDM
	Total	30	

South Zone**3. TVC-1 (Ward No. S-61 to S-72)**

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, South Zone
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer, South Zone
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, South Zone
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, South Zone Dy. Director (Veterinary Services) South Zone Administrative Officer, South Zone
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic)
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP South West District
7	Market/Traders Associations-Members	2	Gautam Nagar Vyapar Mandal, Main Rd, New Delhi-110049 Green Park Extension Market Association
8	Non-Government Organisations-Members	2	YUVA Sunena Devi Kalyan
9	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	National Hawkers Federation
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General Sh. Darshan Kumar S/o Sh. Sohan Pal Sh. Suraj Singh S/o Sh. Jagan Singh Sh. Kumdesb Kumar Gupta S/o Late Sh. J.P. Gupta Sh. Mukesh Kumar S/o Sh. Gangadhar Sh. Kanchi Lal S/o Sh. Nand Ram Sh. Girendra Pandit S/o Late Sh. Ram Briksh Pandit Women Smt. Munesh Devi W/o Sh. Gajender Singh Smt. Nazra Bano W/o Md. Moin Smt. Maheswari Smt. Attar Basa SC Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Ram Karan Sh. Manoj Kumar Banjara
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Sh. Saminder Nagi, EE(M)-I/South Zone
12	Community based organizations-Member	1	Malviya Nagar Assembly Street Vendors Association.
13	Resident Welfare Association-Members	2	RWA, Sarvapriya Vihar Resident Welfare Association B4 Block RWA

14	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM
	Total	30	

South Zone**4. TVC-2 (Ward No. S-73 to S-81 and S-86 to S-88)**

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, South Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer, South Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, South Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, South Zone Dy. Director (Veterinary Services) South Zone Administrative Officer, South Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic)	
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP South District, Hauz Khas	
7	Market/Traders Associations-Members	2	Nehru Place Okhla Trade and Industry Welfare Association, Nehru Place.2. Shiv Mandir Road Market Association, Chirag Delhi. G.K. VYAPARI SANGTHAN	
8	Non-Government Organisations-Members	2	Samadhan Abhiyan PEACE	
9	Banks/Association of Street Vendors- Member	1	Sunena Devi Kalyan Samiti	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Anil Kumar Chaurasiya S/o Sh. Raja Ram Chaurasi Sh. Mahesh Kumar Gupta S/o Sh. Lakhpat Ram Gupta Sh. Laxmi Narayan S/o Sh. Mangal Ram Sh. Devender Kumar Sharma S/o Sh. Jugal Kishor Sharma Sh. Devesh Kumar Sahu S/o Sh. Nem Chand Sahu Sh. Subhash Chand Narang S/o Sh. Hans Raj
			Women	Smt. Krishna Devi W/o Sh. Gyan Chand Smt. Premwati W/o Sh. Tara Chand Ms. Raj Laxmi D/o Sh. Neem Singh Ms. Munni Devi
			SC	Sh. Dharam Pal Singh S/o Sh. Bal Ram Sh. Prem Singh S/o Sh. Dharam Singh
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Sh. RP Meena, EE(M)-III/South Zone	
12	Community based organizations - Member	1	Citizen Alliance, 147 Mandakini Enclave	

13	Resident Welfare Association - Members	2	S-Block Residents Welfare Association, GK Vayapari Sangathan. Prema Vikash Samiti Khirki Extension, Malviya Nagar
14	Revenue Department, GNCTD - Member	1	Area SDM
	Total	30	

West Zone**5. TVC-1 (Ward No. S-1 to S-10)**

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, West Zone
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer, West Zone
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, West Zone
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, South Zone Dy. Director (Veterinary Services) South Zone Administrative Officer, South Zone
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic)-West District
6	Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP-West District
7	Market/Traders Associations - Members	2	Main Market Madipur Vyapar Association Ambedkar Market Association
8	Non-Government Organisations - Members	2	Hawker Foundation, Delhi Chaudhary Munsi Ram jan Kalyan Samiti
9	Banks/Association of Street Vendors- Member	1	Natinal Hawker Federation
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General Sh. Ravi Kumar S/o Sh. Nand Lal Sh. Rajender Kumar S/o Sh. Vakil Chand Women Mrs. Sonia Parmar W/o Sh. Dev Ashish SC Sh. Roop Ram S/o Sh. Ram Chander
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Shri B.S. Yadav, EX Eng.(M)-I/West Zone
12	Community based organizations - Member	1	Dill Prantiy Raigar panchayat
13	Resident Welfare Association-Members	2	Shivaji Enclave Welfare Association Navhetna Society
14	Revenue Department, GNCTD - Member	1	SDM
	Total	30	

West Zone**6. TVC-2 (Ward No. S-11 to S-20)**

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, West Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer, West Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, West Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, West Zone Deputy Director (Veterinary Services), West Zone Administrative Officer, West Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic)-West District	
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP-West District	
7	Market/Traders Associations-Members	2	Purani Khokha Union Centre market, Tilak Nagar Gurudwara Auto Market Society	
8	Non-Government Organisations-Members	2	Centre for Civil Society Vocie of Voice Less	
9	Banks/Association of Street Vendors- Member	1	Delhi Pradesh Rehri Patri Khomcha Hawkers Union.	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Kishore Gulyani S/o Sh. Pritam Singh Sh. Ashwani Kumar Sethi S/o Sh. Kishan Lal Sh. Lal Chand Chaurasiya S/o Sh. Siya Ram Chaurasiya Sh. Harish Arora S/o Sh. Roshan Lal Arora Sh. Jai Prakash S/o Sh. Ram Nath Sh. Dwarka Dass ChawalaS/o Sh. Moti Ram
			Women	Mrs. Sunita W/o Sh. Om Prakash Mrs. Om wati w/o Nannu Mal Mrs. Vimala w/o Ramesh Singh Mrs. Rekha Devi Chorashia w/o Manish Kumar Chorashia
			SC	Sh. Manik Chand S/o Sh. Badshah Sh. Nen Singh s/o Sh. Khamani
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Shri S.E. Yadav, Ex-Eng. (M)-III/West Zone	
12	Community based organizations - Member	1	Sarab Dharam Seva Samiti	
13	Resident Welfare Association - Members	2	Federation of RWA Tilak Nagar-9810056162 Universal RWA Guru Nanak Nagar	
14	Revenue Department, GNCTD - Member	1	SDM	
	Total	30		

West Zone
7. TVC-3 (Ward No. S-21 to S-29)

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, West Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer, West Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, West Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, West Zone Deputy Director (Veterinary Services), West Zone Administrative Officer, West Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic Police)-South West District	
6	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP-Dwarka District	
7	Market/Traders Associations-Members	2	Trader Association Uttam Nagar Uttam Nagar Main Road Market Association	
8	Non-Government Organisations-Members	2	Centre for Civil Society YUVA	
9	Banks/Association of Street Vendors- Member	1	Delhi Pradesh Rehri Patri Khomcha Union.	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Gunjan Kumar Rai S/o Sh. Anil Kumar Rai
			
			
			
			
			
			Women	----
			
			
			
			SC	Sh. Birjesh S/o Sh. Ram Babu Sh. Raju Ray Dass S/o Sh. Satpal
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Shri Niranjan Daboriya, Ex-Eng. (M)-IV/West Zone	
12	Community based organizations-Member	1	Sarv Dharma Seva Samiti	
13	Resident Welfare Association-Members	2	RWA New Janak Puri M-8510005616 RWA DDA Flats Bindapur M-9910865052	
14	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM	
	Total	30		

Najafgarh Zone**8. TVC-1 (Ward No. 30-S to 42-S)**

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, Najafgarh Zone	
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer/ Najafgarh Zone	
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Najafgarh Zone	
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Najafgarh Zone	
			Deputy Director (Veterinary Services), , Najafgarh Zone	
			Administrative Officer, , Najafgarh Zone	
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic Police)-Dwarka District	
6	Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP- Dwarka District	
7	Market/Traders Associations - Members	2	Matiala Road Market Association	
			Market Association Sect. 12, Dwarka	
8	Non-Government Organisations - Members	2	Samajik Ekta Foundation	
			Lal Bahadur Shastri Foundation	
9	Banks/Association of Street Vendors - Member	1	Mangla Puri Vegetables and Fruit mandi Sellors Association.	
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Dilip Sahu S/o Sh. Ram Vilas Sahu
				Sh. Hari Om S/o Sh. Mewa Ram
				Sh. Vijay Kumar S/o Sh. Ram Vilas Sahu
				Sh. Ashok Kumar Gupta S/o Sh. Ram Dhar Sao
				Sh. Prabhakar Kumar s/o Sh. Dular Chand Shaw
				Sh. Satish Chand s/o Om Prakash.
			Women	Smt. Kamini Devi W/o Sh. Ram Chandra Sah
				Smt. Sona w/o Late Kishan Lal
				Smt. Kamla Dvi w/o Sh. Hari Ram
				Smt. Meera Devi w/o Sh. MohanLal
			SC	Sh. Malhan lal s/o Sh. Harkesh
				Sh. Vinod Kumar s/o Sh. Sripal Singh
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Shri Deepak Gahlot EE/M-I/Najafgarh Zone	
12	Community based organizations - Member	1	Rise Foundation Flat 94, Second floor Pocket 1 &2 Sector 3, DDA Flats Dwarka, New Delhi-75	
13	Resident Welfare Association-Members	2	RWA Indira Park. 9818015401	
			RWA Nalla Patri, Gali No.3, Dwarka 9718075603	
14	Revenue Department, GNCTD - Member	1	SDM	
	Total	30		

Najafgarh Zone**9. TVC-2 (Ward No. S-43 to S-54)**

Sl. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member
1	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Dy. Commissioner, Najafgarh Zone
2	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Dy. Health Officer/ Najafgarh Zone
3	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Najafgarh Zone
4	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Najafgarh Zone Deputy Director (Veterinary Services), , Najafgarh Zone Administrative Officer, , Najafgarh Zone
5	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic)
6	Police-not below the rank of ACP -Member	1	ACP- Dabri District
7	Market/Traders Associations - Members	2	Sadh Nagar Market Association Shopkeeper Market Association, Mahavir Enclave
8	Non-Government Organisations - Members	2	Manav Chintan Path Lal Bahadur Shastri Foundation
9	Banks/Association of Street Vendors- Member	1	Delhi Pradesh Rahri Patri Khomcha Khoka Association
10	Street Vendors (Elected)- Members	12	General Sh. Ram Niwas Gupta S/o Sh. Nanaku Lal Gupta Sh. Ramesh Rai S/o Sh. Kusho Rai Sh. Hari Om Gupta s/o Sh. Kishan Gupta Sh. Rajesh Kumar Sahu s/o Sh. Ram Bilas Sahu Sh. Vijay Gupta s/o Sh. Raj Kumar Gupta Sh. Hari Lal s/o Sh. Ram Swaroop Sharma Women Smt. Beena Devi w/o Sh.DineshKumar Smt. Vimlesh Dvi kanu w/o Sh. Sipahi Kanu Smt. Sheela Dvi w/o Sh. Bachu lal Smt. Mamta Devi w/o Sh. Dilip Sahu SC Sh. Sundar Lal s/o Sh. Chitar Mal.
11	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Shri Deepak Gahlot EE/M-I/Najafgarh Zone
12	Community based organizations - Member	1	Gram Vikas Mandal, Ghumenhera
13	Resident Welfare Association - Members	2	Jan Kalyan Samiti Najafgarh, M-9599630860 RWA Nazafgarh Park, 9212414142
14	Revenue Department, GNCTD - Member	1	SDM
	Total	30	

This notification is issued with the approval of the Hon'ble Minister (Urban Development) Government of NCT of Delhi

VINOD KUMAR, Dy. Secy. (M.B.)

अधिसूचना

दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

फा.सं.:13/(230)/श.वि./एमबी/2018/पार्ट फाईल/सी.डी.नं.-021517474/1925 -पूर्व की सभी सूचनाओं अधिकमण तथा पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 के 7) की धारा 22 के साथ पठित दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियम 14 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए निम्नलिखित छः (06) नगर विक्रय कमेटियों के गठन की अधिसूचना जारी करती है:-

शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र

टाउन वेंडिंग समिति-1 (मयूर विहार) (वार्ड संख्या 01ई से 08ई एवं 11ई व 12ई)

क्रम सं.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नमांकित/निर्वाचित सदस्य
1.	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त - शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
2.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
3.	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
4.	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
5.	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं) - सदस्य	1	ए0सी0पी0 (यातायात) - पूर्व
6.	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	ए0सी0पी0 (कल्याणपुरी)
7.	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	न्यू कोण्डली व्यापार मंडल चेम्बर ऑफ ट्रेड एंड इण्डस्ट्रीज, फ्री लांस-12, प्रिंटिंग प्रेस एरिया, नियर पंजाब केसरी, वजीरपुर
8.	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	सुनैना देवी कल्याण समिति हॉकर फाउण्डेशन दिल्ली
9.	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1	मयूर विहार फुटपाथ दुकानदार कल्याण समिति
10.	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-11)	सामान्य श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रामसहाय श्री चरण सिंह पुत्र श्री संतराम श्री देव नंदन प्रसाद पुत्र श्री भगवान प्रसाद श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामसहाय श्री कृष्ण लाल गुप्ता पुत्र श्री गया प्रसाद श्री सतीश कुमार पुत्र श्री देवी दयाल महिला श्रीमती किरण पत्नी श्री धरण सिंह श्रीमती पुलतुल दत्ता पत्नी श्री मन्दू दत्ता

				श्रीमती शिवलता पत्नी श्री महेश कुमार श्रीमति बच्चन कौर
			अनुसूचित जाति	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हरिकेश श्री हरिओम पुत्र श्री सोहनलाल
11.	सीपीडब्ल्यूडी / पीडब्ल्यूडी / स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग— (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) —सदस्य	1	अधिशाली अभियन्ता (एम-3), शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र	
12.	समुदाय आधारित संगठन / — सदस्य	1	महापूर्वांचल एकता समिति	
13.	रेजीडेन्ट वेल्फेयर संघ —सदस्य	2	ग्रुप-12 कम्यूनिटी वेल्फेयर एसोसिएशन, मयूर विहार, 3 आर.डब्ल्यू. ए खिचड़ीपुर दिल्ली	
14.	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— सदस्य	1	एस.डी.एम	
	कुल	30		

शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र

टाउन वेंडिंग समिति-2 (लक्ष्मी नगर) (वार्ड संख्या 09ई व 10ई, 13ई से 16ई, 20ई, 23ई, व 24ई)

क्रम सं.	विभाग / निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नमांकित / निर्वाचित सदस्य
1.	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त / अपर आयुक्त / उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त — शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
2.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी—सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
3.	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)— सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
4.	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी (मुख्या प्रवर्तन विभाग / स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त / अध्यक्ष / सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)—सदस्य	3	सहायक आयुक्त, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र उप-निदेशक (पशु चिकित्सा सेवाए शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
5.	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)— सदस्य	1	ऐ0सी0पी0 (यातायात) — पूर्व
6.	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)— सदस्य	1	ऐ0सी0पी0 (प्रीत विहार)
7.	बाजार / व्यापारी संघ — सदस्य	2	स्कूल ब्लॉक मार्केट एसोसिएशन रमेश पार्क हॉलसेल मार्केट एसोसिएशन.
8.	गैर सरकारी संगठन— सदस्य	2	युवा हॉकर फाउण्डेशन दिल्ली
9.	बैंक / स्ट्रीट वैंडर्स संघ — सदस्य	1	रेहड़ी पटरी एकता मंच
10.	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)— सदस्य	12 (चयनित-9)	सामान्य श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सन्नू लाल गुप्ता श्री लखपत सिंह पुत्र श्री हर प्रसाद श्री राम धन पुत्र श्री राम तहल श्री पंकज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र पोद्दार

				श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
				श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चन्द्र सैन
		महिला		श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री फकीर चन्द्र
				श्रीमती प्रेमलता तिवारी पत्नी श्री प्रेम नारायण तिवारी
		अनुसूचित जाति		श्री लखन सिंह पुत्र श्री प्रमेश्वर दयाल
11.	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग— (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) —सदस्य	1	अधिशाली अभियन्ता (एम-IV), शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र	
12.	समुदाय आधारित संगठन/ — सदस्य	1	पूर्वांचल विकास सेवा समिति	
13.	रेजीडेंट वेल्फेयर संघ —सदस्य	2	आर.डब्ल्यू.ए डी ब्लॉक शकरपुर दिल्ली	
			आर.डब्ल्यू.ए सी ब्लॉक गणेशनगर दिल्ली	
14.	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— सदस्य	1	एस.डी.एम	
	कुल	30		

शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र

टाउन वेंडिंग समिति-3 (शाहदरा) (वार्ड संख्या 17ई, 18ई, 21ई, 22ई, 25ई से 27ई, 29ई, 30ई व 31ई)

क्रम सं.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नमांकित/निर्वाचित सदस्य
1.	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
2.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
3.	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
4.	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र
5.	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं) — सदस्य	1	ए0सी0पी0 (यातायात) — पूर्व
6.	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	ए0सी0पी0 (मधु विहार)
7.	बाजार/व्यापारी संघ — सदस्य	2	सरिता विहार मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन आनन्द विहार मार्केट एसोसिएशन.
8.	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	युवा आई.जी.एस.एस.एस
9.	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ — सदस्य	1	एन.एच.एफ
10.	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-9)	सामान्य श्री ब्रिजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राधे श्याम श्री कुलदीप सिंह पुत्र

				श्री परिमल
				श्री मौ० इरशाद पुत्र
				श्री इस्लाम
				श्री रणजीत सिंह पुत्र
				श्री बंशराज
			महिला	श्री शिव कुमार पुत्र
				श्री अनूपसिंह
				श्री सोनू पुत्र श्री बाल किशन
				श्रीमती सीता देवी पत्नी
				श्री हंसराज
अनुसूचित जाति	श्रीमति शोभा पत्नी			
	श्री राजकुमार			
	श्रीमति सुमित रेखा पत्नी			
	श्री भगवान सिंह			
	श्रीमति सतनाम कौर पत्नी			
	श्री सरदार सिंह			
	श्री राज कुमार पुत्र			
श्री बाबूलाल				
श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र				
	श्री रामप्रसाद			
11.	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) –सदस्य	1	अधिशाली अभियन्ता (एम-1), शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र	
12.	समुदाय आधारित संगठन/ – सदस्य	1	ज्योति फाउण्डेशन	
13	रेजीडेन्ट वेलफेयर संघ –सदस्य	2 (नामित-01)	आर.डब्ल्यू. ए ब्लॉक 28-29 विश्वास नगर आर.डब्ल्यू. साउथ विश्वास नगर	
14.	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	(नामित-1)	एस.डी.एम	
	कुल	30		

शाहदरा उत्तरी क्षेत्र

टाउन वेंडिंग समिति-1 (नन्द नगरी) (वार्ड संख्या 28ई, 32ई, से 39ई व 49ई से 51ई)

क्रम सं.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नमांकित/ निर्वाचित सदस्य
1.	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
2.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
3.	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
4.	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधी(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं शाहदरा उत्तरी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
5.	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	ऐ0सी0पी0 (यातायात) - उत्तर पूर्वी
6.	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	ऐ0सी0पी0 (नन्द नगरी)
7.	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2	व्यापारी कल्याण समिति नई सीमा पुरी

			एल.आई.सी डी.डी.ए मार्केट जी.टी.बी एन्कलेव	
8.	गैर सरकारी संगठन— सदस्य	2	मान्यवर काशीराम जन कल्याण समिति युवा	
9.	बैंक/स्ट्रीट वैंडर्स संघ – सदस्य	1	एन.एच.एफ	
10.	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)— सदस्य	12 (चयनित-7)	सामान्य	श्री अजय गुप्ता पुत्र श्री जगदीश गुप्ता श्री नसीरुद्दीन पुत्र श्री अल्हा राजी श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री सूरज भान गुप्ता श्री नीरज अग्निहोत्री पुत्र श्री दीन दयाल शमा श्री रक्षपाल सिंह पुत्र श्री बनारसी दास श्री मौ० माहिर पुत्र श्री मौ० अबरार
			महिला	श्रीमती राजवती पत्नी श्री विरेन्द्र श्रीमती दुलारी पत्नी श्री शिवचरण श्रीमती सावित्री पत्नी श्री सुमेर सिंह श्री मती भगवती पत्नी श्री मुकेश
			अनुसूचित जाति	श्री संतोष कुमार सुपुत्र श्री राधेश्याम श्री सुमेर सिंह, सुपुत्र श्री मांगेलाल
11.	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग— (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) –सदस्य	1	अधिशाली अभियन्ता (एम-3), शाहदरा उत्तरी क्षेत्र	
12.	समुदाय आधारित संगठन/ – सदस्य	1	ज्योती फाउण्डेशन	
13	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग— (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) –सदस्य	2	आर.डब्लू.ए., सुन्दर नगरी ई ब्लॉक आर.डब्लू.ए., सुन्दर नगरी	
14.	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— सदस्य	1	एस.डी.एम	
	कुल	30		

शाहदरा उत्तरी क्षेत्र

टाउन वेंडिंग समिति-2 (मौजपूर) (वार्ड संख्या 40ई से 48ई, 53ई व 58ई)

क्रम सं.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नमांकित/ निर्वाचित सदस्य
1 ^ए	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
2.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र

3.	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)– सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
4.	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि(मुख्य प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)–सदस्य	3	सहायक आयुक्त, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र उप-निदेशक, पशु चिकित्सा सेवाएं शाहदरा उत्तरी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
5.	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	ए0सी0पी0 (यातायात) – उत्तर पूर्वी
6.	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)– सदस्य	1	ए0सी0पी0 (गोकलपुरी)
7.	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	टंकी रोड मेन मार्केट एसोसिएशन भजनपुरा रोड मेन मार्केट एसोसिएशन
8.	गैर सरकारी संगठन– सदस्य	2	पी.ई.ए.सी.ई. हॉकर फाउण्डेशन दिल्ली
9.	बैंक/स्ट्रीट बैंडर्स संघ – सदस्य	1	रेहड़ी पटरी फुटपाथ विक्रेता एकता मंच
10.	स्ट्रीट बैंडर्स (चयनित)– सदस्य	12 (चयनित-2)	सामान्य श्री राजकुमार पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद श्री अमीन अहमद श्री नसीफ अहमद श्री पंकज अग्निहोत्री श्री सुरेश कुमार श्री सुनील कुमार महिला श्रीमति सुशीला अनुसूचित जाति श्री मनोज कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार श्री राजेश कुमार
11.	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग– (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) –सदस्य	1	अधिशासी अभियन्ता (एम-2), शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
12.	समुदाय आधारित संगठन/ – सदस्य	1	ज्योति फाउण्डेशन
13.	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग– (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) –सदस्य	2	आर.डब्लू.ए., सी ब्लॉक शास्त्री पार्क जन कल्याण समिति आर.डब्लू.ए. बी-02 ब्लॉक यमुना विहार
14.	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य	1	एस.डी.एम
	कुल	30	

शाहदरा उत्तरी क्षेत्र

टाउन वेंडिंग समिति-3 (खजूरी खास) (वार्ड संख्या 52ई, 54ई से 57ई व 59ई से 64ई)

क्रम सं.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या	नमांकित/ निर्वाचित सदस्य
1 ^ए	सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त-अध्यक्ष	1	उपायुक्त-शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
2.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1	उप-स्वास्थ्य अधिकारी, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
3.	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)– सदस्य	1	सहायक नगर योजनाकार, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र

4.	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि(मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष /सी.ई.ओ. द्वारा नामित अधिकारी)-सदस्य	3	सहायक आयुक्त, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र उप-निदेशक (पशु चिकित्सा सेवाएं) शाहदरा उत्तरी क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
5.	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	ए0सी0पी0 (यातायात) – उत्तर पूर्वी
6.	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1	ए0सी0पी0 (खजूरी खास)
7.	बाजार/व्यापारी संघ – सदस्य	2	सोनिया विहार मार्केट वेल्फेयर एसोसिएशन खजूरी खास मेन मार्केट एसोसिएशन
8.	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2	ज्योति फाउण्डेशन समाधान अभियान
9.	बैंक/स्ट्रीट बैंडर्स संघ – सदस्य	1	एन.ए.एस.वी.आई
10.	स्ट्रीट बैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12 (चयनित-4)	सामान्य श्री नीरज कुमार पुत्र श्री काली चरण अग्रवाल श्री शराफत अली पुत्र श्री मौ0 इशाक श्री ओमपाल पुत्र श्री रघुराज श्री जय प्रकाश पुत्र श्री तेज सिंह श्री हरविन्दर सिंह श्री शरीफुल हसन महिलाएं अनुसूचित जाति
11.	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो) –सदस्य	1	अधिशाली अभियन्ता (एम-4), शाहदरा उत्तरी क्षेत्र
12.	समुदाय आधारित संगठन/ – सदस्य	1	प्लेटिनम एजुकेशन सोसायटी
13.	स्ट्रीट बैंडर्स (चयनित)- सदस्य	2	ई.ब्लॉक खजूरी खास सुधार समिति सादतपुर एक्सटेंशन सुधार समिति
14.	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1	एस.डी.एम
	कुल	30	

यह अधिसूचना माननीय मंत्री (शहरी विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्वीकृति से जारी की जाती है।

विनोद कुमार, उप सचिव (श. वि.)

NOTIFICATION

Delhi, the 17th September, 2019

No.F.13(230)/UD/MB/2018/Pt File 1/(CD NO. 021517474)/1925.—In supersession of all earlier notifications and in exercise of powers conferred under Section 22 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) read with Rule 14(3) of the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017, the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby notifies the constitution of following SIX Town Vending Committees for East Delhi Municipal Corporation namely:-

SHAHDARA SOUTH ZONE**1. TOWN VENDING COMMITTEE-1 (MAYUR VIHAR) (Ward No. 01E to 08E and 11E & 12E)**

S. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1.	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Shahdara South Zone	
2.	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Shahdara South Zone	
3.	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Shahdara South Zone	
4.	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Shahdara South Zone	
			Dy. Director (Veterinary Services), Shahdara South Zone	
			Administrative Officer, Shahdara South Zone	
5.	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic) – East	
6.	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Kalyan Puri)	
7.	Market/Traders Associations-Members	2	New Kondali Vyapar Mandal	
			Chamber of Trade and Industry, Freelance 12 Printing Press Area, Near Punjab Kesri Wazirpur	
8.	Non-Government Organisations-Members	2	Sunena Devi kalia Samiti	
			Hawker Foundation Delhi	
9.	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	Mayur Vihar Footpath Dukandaar Kalyan Samitit	
10.	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Chander Prakash S/o Sh. Ramsahai
				Sh. Charan Singh S/o Sh. Sant Ram
				Sh. Dev Nandan Prasad S/o Sh. Bhagwan Prasad
				Sh. Mukesh Kumar S/o Sh. Ramshey
				Sh. Krishan Lal Gupta S/o Sh. Gaya Prasad
				Sh. Satish Kumar S/o Sh. Davi Dayal
			Women	Smt. Kiran W/o Sh. Dhran Singh
				Smt. Pultul Dutta W/o Sh. Mantu Dutta
				Smt. Shiv Lata W/o Sh. Mahesh Kumar
				Smt.. Bachan kaur w/o Mahender Singh
			SC	Sh. Ashok Kumar S/o Sh. Harikesh
				Sh. Hariom S/o Sh. Sohanlal
11.	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer (M)-III, Shahdara South Zone	
12.	Community based organizations-Member	1	Maha Purvanchal Ekta Samiti	
13.	Resident Welfare Association-Members	2	Group 12 Community Welfare Association Mayur Vihar, 3	
			RWA Khichari Pur Delhi	
14.	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM	
	Total	30		

SHAHDARA SOUTH ZONE**2. TOWN VENDING COMMITTEE-2 (LAXMI NAGAR) (Ward No. 09E & 10E, 13E to 16E, 19E, 20E, 23E and 24E)**

S. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1.	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Shahdara South Zone	
2.	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Shahdara South Zone	
3.	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Shahdara South Zone	
4.	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Shahdara South Zone	
			Dy. Director (Veterinary Services), Shahdara South Zone	
			Administrative Officer, Shahdara South Zone	
5.	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic) – East	
6.	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Preet Vihar)	
7.	Market/Traders Associations- Members	2	School Block Market Association	
			Ramesh Park Wholesale Market Association	
8.	Non-Government Organizations- Members	2	YUVA	
			Hawker Foundation Delhi	
9.	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	Rehri Patri Ekta manch	
10.	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Rajiv Kumar Gupta S/o Sh. Sannu Lal Gupta
				Sh. Lakshpat Singh S/o Sh. Har Prasad
				Sh. Ram Dhan S/o Sh. Ram Tahal
				Sh. Pankaj Kumar S/o Sh. Mahendra Poddar
				Sh. Gopal Singh S/o Sh. Laxman Singh
				Sh. Ashok K S/o Sh. Chander Sain
			Women	Smt. Kanta Devi W/o Sh. Fakir Chandra
				Smt. Premlata Tiwari W/o Sh. Prem Narayan Tiwari
			
			
				Sh. Lakhan Singh
			
11.	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer (M)-IV, Shahdara South Zone	
12.	Community based organizations- Member	1	Purvanchal Vikas Sewa Samiti	
13.	Resident Welfare Association- Members	2	RWA D Block Shakarpur Delhi	
			RWA C Block Ganesh Nagar	
14.	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM	
	Total	30		

SHAHDARA SOUTH ZONE**3. TOWN VENDING COMMITTEE-3 (SHAHDARA) (Ward No. 17E, 18E, 21E, 22E, 25E to 27E, 29E, 30E and 31E)**

S. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1.	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Shahdara South Zone	
2.	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Shahdara South Zone	
3.	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Shahdara South Zone	
4.	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Shahdara South Zone	
			Dy. Director (Veterinary Services), Shahdara South Zone	
			Administrative Officer, Shahdara South Zone	
5.	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic) – East	
6.	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Madhu Vihar)	
7.	Market/Traders Associations - Members	2	Sarita Vihar Market Trader Association	
			Anand Vihar Market Association	
8.	Non-Government Organisations-Members	2	YUVA	
			IGSSS	
9.	Banks/Association of Street Vendors- Member	1	NHF	
10.	Street Vendors (Elected)-Members	12	General	Sh. Brejender Kumar Yadav S/o Sh. Radhy Shyam
				Sh. Kuldeep Singh S/o Sh. Parimal Singh
				Sh. Mhod. Irshad S/o Sh. Islam
				Sh. Ranjeet Singh S/o Sh. Bansraj
				Sh. Shiv Kumar S/o Sh. Anoop Singh
				Sh. Sonu S/o Sh. Bal Kishan
			Women	Smt. Seeta Devi W/o Sh. Hansraj
				Smt. Shobha w/o Sh. Rajkumar
				Smt. Sumit Rekha w/o Sh. Bhagwan Singgh
				Smt. Satnam Kaur w/o Sh. Sardar Singh
			SC	Sh. Raj Kumar S/o Sh. Babu Lal
				Sh. Rajender Prasad S/o Sh. Ram Prasad
11.	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer (M)-I, Shahdara South Zone	
12.	Community based organizations-Member	1	Jyoti Foundation	
13.	Resident Welfare Association-Members	2	RWA Block 28-29 Vishwas Nagar	
			RWA South Vishwas Nagar	
14.	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM	
	Total	30		

SHAHDARA NORTH ZONE**4. TOWN VENDING COMMITTEE-1 (NAND NAGRI) (Ward No. 28E, 32E to 39E and 49E to 51E)**

S. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1.	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Shahdara North Zone	
2.	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Shahdara North Zone	
3.	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Shahdara North Zone	
4.	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Shahdara North Zone Dy. Director (Veterinary Services), Shahdara North Zone Administrative Officer, Shahdara North Zone	
5.	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic) – North East	
6.	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Nand Nagri)	
7.	Market/Traders Associations-Members	2	Vyapari Kalyan Samiti New Seemapuri LIC DDA Market GTB Enclave	
8.	Non-Government Organisations-Members	2	Manyawar Kansi Ram Jan Kalyan Samiti YUVA	
9.	Banks/Association of Street Vendors- Member	1	NHF	
10.	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Ajay Gupta S/o Sh. Jagdish Gupta Sh. Nasruddin S/o Allh Razi Sh. Neeraj Gupta S/o Sh. Suraj Ban Gupta Sh. Neeraj Agnihotri S/o Sh. Deen Dayal Sharma Sh. Raksh Pal Singh S/o Sh. Banarsi Dass Sh. Mohd. Mahir S/o Sh. Mohd Abrar
			Women	Smt. Rajwati W/o Sh. Virendra Smt. Dulari w/o Sh Shiv Charan Smt. Savtiri w/o Sh. Sumer Singhj Smt. Bhagwati w/o Sh. Mukesh
			SC	Sh. Santosh Kumar s/o Sh. Radhey Shyam
11.				Sh. Sumer Singh s/o Sh. Mange Lal
12.	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer (M)-III, Shahdara North Zone	
13.	Community based organizations-Member	1	Jyoti Foundation	
14.	Resident Welfare Association-Members	2	RWA Sunder nagri E Block RWA Sundar Nagri	
15.	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM	
	Total	30		

SHAHDARA NORTH ZONE**5. TOWN VENDING COMMITTEE-2 (MAUJPUR) (Ward No. 40E to 48 E, 53E and 58E)**

S. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1.	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Shahdara North Zone	
2.	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Shahdara North Zone	
3.	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Shahdara North Zone	
4.	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Shahdara North Zone	
			Dy. Director (Veterinary Services), Shahdara North Zone	
			Administrative Officer, Shahdara North Zone	
5.	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic) – North East	
6.	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Gokul Puri)	
7.	Market/Traders Associations-Members	2	Tanki Raoad Main Market Association Bhajanpura Road main market Association	
8.	Non-Government Organisations-Members	2	PEACE	
			Hawker Foundation Delhi	
9.	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	Rehri patri Footpath Vikreta Ekta Manch	
10.	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Raj Kumar S/o Sh. Jagannath Prasad
				Sh. Ameen Ahmed s/o Sh. Nafis Ahmed
				Sh. Nafis Ahmed s/o Sh. Mohd. Abrar
				Sh. Pankaj Agnihotri s/o Sh. Deen Dayal Sharma
				Sh. Sudesh Kumar s/o Sh. Babu Ram
				Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Anand Swaroop
			Women	Smt. Sushila w/o Sh. Ram Swaroop
			
			
			SC	Sh. Manoj Kumar S/o Sh. Suresh Kumar Sh. Rajesh Kumar s/o Sh. Radhey Lal
11.	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer (M)-II, Shahdara North Zone	
12.	Community based organizations-Member	1	Jyoti Foundation	
13.	Resident Welfare Association-Members	2	RWA C-Block Shahstri park, Jan kalia Samiti	
			RWA B-2 Block, Yamuna Vihar	
14.	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM	
	Total	30		

SHAHDARA NORTH ZONE**6. TOWN VENDING COMMITTEE-3 (KHAJOURI KHAS) (Ward No. 52E, 54E to 57E and 59E to 64E)**

S. No.	Department/Body	No. of representative	Nominated/Elected Member	
1.	Commissioner / Additional Commissioner / Deputy Commissioner of the Local Authority -Chairperson	1	Deputy Commissioner, Shahdara North Zone	
2.	Medical Officer of Local Authority - Member	1	Deputy Health Officer, Shahdara North Zone	
3.	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority) – Member	1	Assistant Town Planner, Shahdara North Zone	
4.	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner / Chairperson / Chief Executive Officer) -Members	3	Assistant Commissioner, Shahdara North Zone Dy. Director (Veterinary Services), Shahdara North Zone Administrative Officer, Shahdara North Zone	
5.	Traffic Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Traffic) – North East	
6.	Police-not below the rank of ACP-Member	1	ACP (Khajuri Khas)	
7.	Market/Traders Associations-Members	2	Sonia Vihar market Welfare Association Khajuri Khas Main market Association	
8.	Non-Government Organisations-Members	2	Jyoti Foundation Samdhan Abhiyan	
9.	Banks/Association of Street Vendors-Member	1	NASVI	
10.	Street Vendors (Elected)- Members	12	General	Sh. Neeraj Kumar S/o Sh. Kali Charan Aggarwal Sh. Sharafat Ali S/o Sh. Md. Ishaq Sh. Ompal S/o Sh. Raghuraj Sh. Jai Prakash S/o Sh. Tej Singh Sh. Harvinder Singh s/o Sh. Harbans Singh Sh.Shariful Hasan s/o Sh. Yusuf Hasan
			Women	-----
			SC -----
11.	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction)- Member	1	Executive Engineer (M)-IV, Shahdara North Zone	
12.	Community based organizations-Member	1	Platinum Education society	
13.	Resident Welfare Association-Members	2	E Block Khajuri Khas Sudhar Samiti Sadatpur Extension Sudhar Smiti	
14.	Revenue Department, GNCTD-Member	1	SDM	
	Total	30		

This notification is issued with the approval of the Hon'ble Minister (Urban Development) Government of NCT of Delhi

VINOD KUMAR, Dy. Secy. (M.B.)